



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)

टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100

वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक:- प-10 ()संस्थापन/प्रबंध बोर्ड/2013-14/13041

दिनांक:-27.05.2019

प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 27.05.2019 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 27.05.2019 को कुलपति सचिवालय में प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रही:-

| | |
|--------------------------|---|
| 1. प्रो. बी.एल. शर्मा | अध्यक्ष (माननीय कुलपति) |
| 2. श्री जे. पी. चंदेलिया | मा. सदस्य (माननीय विधायक, पिलानी) |
| 3. डॉ. बी. के. दुलड़ | मा. सदस्य (प्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा एवं प्राचार्य एस. के. कन्या महाविद्यालय, सीकर) |
| 4. डॉ. सोमकांत भोजक | मा. सदस्य (मा. कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य) |
| 5. डॉ. यशपाल सिंह | मा. सदस्य (मा. कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य) |
| 6. डॉ. ए. के. गुप्ता | मा. सदस्य (प्रख्यात शिक्षाविद) |
| 7. डॉ. मदन लाल वर्मा | मा. सदस्य (डीन वाणिज्य) |
| 8. डॉ. अशोक गोदारा | मा. सदस्य (डीन शिक्षा) |
| 9. डॉ. राजेन्द्र सिंह | सदस्य सचिव (कुलसचिव) |

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मितिग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये जाते हैं:

एजेण्डा बिन्दु संख्या 01: गत बैठक दिनांक 11.06.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन । (प्राधिकार मण्डल शाखा)
निर्णय:- सर्वानुमति से दिनांक 11.06.2018 की प्रबंध मण्डल की बैठक की कार्यवाही को मय प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 11.06.2018 की अनुपालना रिपोर्ट के साथ अनुमोदित किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 02: वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.02.2019 एवं उक्त बैठक के संशोधित प्रस्ताव हेतु आहूत बैठक दिनांक 25.05.2019 द्वारा वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में तथा बिल्डिंग समिति की बैठक दिनांक 02.02.2019 भवन निर्माण के संदर्भ में लिये गये निर्णयों पर चर्चा एवं अनुमोदन:

निर्णय: सर्वानुमति से वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.02.2019 के सभी निर्णयों को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है, सिवाय उन निर्णयों के जिनके संदर्भ में दिनांक 25.05.2019 की बैठक में संशोधन किये गये। संशोधित निर्णयों के संदर्भ में दिनांक 25.05.2019 की बैठक के सभी संशोधन प्रस्तावों/निर्णयों को अनुमोदन कर स्वीकार किया जाता है।

2.1 वर्ष 2018-19 का वास्तविक व्यय एवं वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान का अनुमोदन। (वित्त समिति की दिनांक 25.05.2019 की बैठक में स्वीकृत संशोधनानुसार/संदर्भ)

निर्णय 2.1: वर्ष 2018-19 के वास्तविक व्यय के बजट अनुमोदन के सभी प्रस्तावों को संलग्न वास्तविक व्यय विवरण के साथ (जिसे 25.05.2019 की वित्त समिति की बैठक में पारित किया

गया है) स्वीकार किया जाता है। वित्त समिति बैठक दिनांक 25.05.2019 का एजेण्डा आईटम नं. 1 (ब) का निर्णय।

नोट: 1. वर्ष 2018-19 के वास्तविक व्यय एवं वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.02.2019 के सभी वास्तविक व्यय एवं बजट प्रस्तावों/प्रावधानों/प्रविष्टियों को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है परन्तु इनमें डिटेल्ड एक्सपेन्डीचर बजट हेड क्रम संख्या L & M मदों के संदर्भ में वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.05.2019 के एजेण्डा निर्णय संख्या वित्त समिति बैठक दिनांक 25.05.2019 का एजेण्डा आईटम नं. 1 (स) के अनुसार संशोधित निर्णय/प्रस्तावों/प्रावधानों/प्रविष्टियों को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है।

2.2 वर्ष 2017-18 की सी.ए. रिपोर्ट का अनुमोदन। (वित्त समिति की दिनांक 25.05.2019 की बैठक में स्वीकृत संशोधनानुसार/संदर्भ)

निर्णय 2.2: वर्ष 2017-18 की सी.ए. रिपोर्ट, जिसे वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.05.2019 द्वारा स्वीकार किया गया है, का अनुमोदन कर स्वीकार किया जाता है। (संलग्नक: वर्ष 2017-18 की सी.ए. रिपोर्ट) वित्त समिति बैठक दिनांक 25.05.2019 का एजेण्डा आईटम नं. 1 (अ) का निर्णय

नोट 1: सी.ए. रिपोर्ट के शेड्यूल X के पद संख्या 1-6 तक जो अवलोकन अंकित किये गये हैं, उसकी पालना मय स्पष्टता प्रबंध मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया जाता है। (वित्त शाखा)

2.3 विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को देय सातवें वेतनमान का अनुमोदन।

इस संदर्भ में निर्णय प्रबंध मण्डल की वर्तमान बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या 3 के अन्तर्गत लिया गया है।

2.4 वित्त समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु

2.4.1 पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रस्तावित प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार की मुख्य सीढ़ियों के नीचे विश्वविद्यालय के परिसर के बैंक, ए.टी.एम. कक्ष एवं विश्वविद्यालय के संग्रहण केन्द्रों का सीढ़ियों के नीचे की डिजाईन में बदलाव कर निर्माण करने हेतु अनुमति एवं वित्तीय प्रावधान।

(वित्त समिति एवं बिल्डिंग कमेटी का निर्णय: सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर प्रस्तावित प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार की मुख्य सीढ़ियों के नीचे विश्वविद्यालय के परिसर के बैंक, ए.टी.एम. कक्ष एवं विश्वविद्यालय के संग्रहण केन्द्रों का सीढ़ियों के नीचे की डिजाईन में बदलाव कर निर्माण करने हेतु अनुमति एवं वित्तीय प्रावधान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है।

नोट: 1. उक्त प्रस्तावित डिजाईन में फेर-फार एवं निर्माण से सीढ़ियों की डिजाईन में फेर-फार नहीं होगा, इस कारण से वित्तीय भार बहुत ही कम होगा एवं इस कारण से बैंक से ऋण लेकर अलग भवन का निर्माण नहीं करना पड़ेगा।)

2. उक्त फेरफार के बाद प्रस्तावित राशि का निर्धारण आर्किटेक्ट द्वारा प्रबंध मण्डल की अनुमति के बाद तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे प्रबंध मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।


निर्णय 2.4.1: सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रस्तावित प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार की मुख्य सीढ़ियों के नीचे विश्वविद्यालय के परिसर के बैंक, ए.टी.एम. कक्ष एवं विश्वविद्यालय के संग्रहण केन्द्रों का सीढ़ियों के नीचे की डिजाईन में बदलाव कर निर्माण करने हेतु अनुमति एवं वित्तीय प्रावधान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन एजेण्डा की दोनों नोट के साथ स्वीकार किया जाता है।
(देखिये वित्त समिति बैठक दिनांक 02.02.2019 द्वारा अनुमोदित एजेण्डा निर्णय संख्या 1, बिल्डिंग समिति बैठक दिनांक 02.02.2019 द्वारा अनुमोदित एजेण्डा निर्णय संख्या 2)

- 2.4.2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कटराथल परिसर पर प्रस्तावित भवनों के बरामदाओं (कॉरिडॉर) की दीवारों को गंदी होने से बचाने के लिए ग्रेनाईट का पत्थर/विट्रिफाई टाइल लगाने हेतु अनुमति एवं वित्तीय प्रावधान।
(वित्त समिति एवं बिल्डिंग कमेटी का निर्णय: सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कटराथल परिसर पर प्रस्तावित भवनों के बरामदाओं (कॉरिडॉर) की दीवारों को गंदी होने से बचाने के लिए ग्रेनाईट का पत्थर/विट्रिफाई टाइल लगाने हेतु वित्तीय प्रावधान एवं अनुमति के एजेण्डा को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है।)
नोट: उक्त फेरफार के बाद प्रस्तावित राशि का निर्धारण आर्किटेक्ट द्वारा प्रबंध मण्डल की अनुमति के बाद तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे प्रबंध मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

निर्णय 2.4.2: सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कटराथल परिसर पर प्रस्तावित भवनों के बरामदाओं (कॉरिडॉर) की दीवारों को गंदी होने से बचाने के लिए ग्रेनाईट का पत्थर/विट्रिफाई टाइल लगाने हेतु वित्तीय प्रावधान एवं अनुमति के एजेण्डा निर्णयों को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है।
(देखिये वित्त समिति बैठक दिनांक 02.02.2019 द्वारा अनुमोदित एजेण्डा निर्णय संख्या 2, बिल्डिंग समिति बैठक दिनांक 02.02.2019 द्वारा अनुमोदित एजेण्डा निर्णय संख्या 3)

- 2.4.3 पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन के संदर्भ में वित्तीय प्रावधान हेतु।
(वित्त समिति का निर्णय: सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन के संदर्भ में वित्तीय प्रावधान करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक को उक्त प्रावधान हेतु बजट निर्धारित करने एवं खर्च करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं।)

निर्णय 2.4.3: सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन के संदर्भ में वित्तीय प्रावधान करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक को उक्त प्रावधान हेतु बजट निर्धारित करने एवं खर्च करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं। वित्त नियंत्रक के कार्यालय द्वारा इस संदर्भ में रूपये 90000/- व्यय करने की अनुमति वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.02.2019 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 3 द्वारा दी गयी थी, उस अनुमति का अनुमोदन कर किये गये खर्च रु. 90000/- को स्वीकार किया जाता है।



2.4.4 विश्वविद्यालय के कुलगीत के लेखन, गायन, म्यूजिक, रिकॉर्डिंग इत्यादि सभी आनुषांगिक खर्चों का अनुमोदन।

(वित्त समिति का निर्णय: सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कुलगीत के लेखन, गायन, म्यूजिक, रिकॉर्डिंग इत्यादि सभी आनुषांगिक खर्चों के लिए प्रावधान करने एवं इन्हें स्वीकार करने की अनुशंसा को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में इस हेतु रू. 60,000 (रू. साठ हजार) का वित्तीय प्रावधान किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार इस राशि को बढ़ाने का अधिकार विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रत्यायोजित किया जाता है।)

निर्णय 2.4.4: सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कुलगीत के लेखन, गायन, म्यूजिक, रिकॉर्डिंग इत्यादि सभी आनुषांगिक खर्चों के लिए प्रावधान करने एवं इन्हें स्वीकार करने की अनुशंसा को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में इस हेतु रू. 60,000 (रू. साठ हजार) का वित्तीय प्रावधान किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार इस राशि को बढ़ाने का अधिकार विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रत्यायोजित किया जाता है, के वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.02.2019 के एजेण्डा निर्णय को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है।

कुलगीत का प्रारूप

प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः, ज्योति सदन निर्मल ज्ञानालय
पंडित दीनदयाल उपाध्याय, शेखावाटी विश्वविद्यालय।।

विधि-विज्ञान-वाणिज्य-कला निधि,
नव शोध अरु सत्य प्रकाशालय
सेवार्थ राष्ट्र व्यक्तित्व अरु,
युवजन कौशल सृजनालय
शुचिता-समता-सहकार विभूषित,
ज्ञान सदन अभिनव तरुणालय
पंडित दीनदयाल उपाध्याय,
शेखावाटी विश्वविद्यालय।।

उद्यम-साहस-त्याग-तपस्या,
भक्ति-शक्ति की शुभ पुंजालय
सालासर-खाटू-नरहड़-जीण,
कोटि-कोटि जन मन श्रद्धालय
ज्योतित है इस दिव्य धरा पर,
यह अनुपम ज्ञान दीपालय

पंडित दीनदयाल उपाध्याय,
शेखावाटी विश्वविद्यालय।।

कुलगीत के उपर्युक्त प्रारूप को सर्वसम्मति से अनुमोदन किया जाता है।



एजेण्डा बिन्दु संख्या 2.4.5: विश्वविद्यालय के नये परिसर के मुख्य भवन के प्लाजा के निर्माण, कुलपति निवास एवं बोटनिकल गार्डन हेतु कम्पाउण्ड वाल का निर्माण करने हेतु एवं निजी आय से अनुमानतः रू. 1 करोड़ खर्च करने हेतु वित्तीय प्रावधान एवं अनुमति।

निर्णय 2.4.5: सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.02.2019 के एजेण्डा निर्णय संख्या 5 एवं बिल्डिंग कमेटी दिनांक 02.02.2019 की बैठक के एजेण्डा निर्णय प्रस्ताव संख्या 4 के निर्णयों का अनुमोदन करते हुए विश्वविद्यालय के नये परिसर के मुख्य भवन के प्लाजा के निर्माण, कुलपति निवास एवं बोटनिकल गार्डन हेतु कम्पाउण्ड वाल का निर्माण करने हेतु एवं निजी आय से अनुमानतः रू. 1 करोड़ खर्च करने हेतु वित्तीय प्रावधान एवं अनुमति प्रदान करने का निर्णय किया जाता है।

(संलग्नक 1- वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.02.2019 का स्वीकृत कार्यवृत्त)

(संलग्नक 2- बिल्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 02.02.2019 का स्वीकृत कार्यवृत्त)

(संलग्नक 3- वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.05.2019 का स्वीकृत कार्यवृत्त)

एजेण्डा बिन्दु संख्या 03: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के संबंधित अधिकारियों/ शिक्षकों/कर्मचारियों के कि एकेडमिक लेवल पोस्ट के संदर्भ में राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेशांक एफ. 1 (4) शिक्षा-4/2016 दिनांक 01.10.2018 द्वारा जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों, लाइब्रेरियन, डी. पी.ई. वगैरह जो भी पद शामिल हैं, के वेतन श्रृंखला में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय को की गयी स्वीकारने की अनुशंसा के संपूर्ण दस्तावेज को मय सभी अनुसूचियों के स्वीकार करने के संदर्भ में।

(संलग्नक 4- राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेशांक एफ. 1 (4) शिक्षा-4/2016 दिनांक 01.10.2018)

(वित्त विभाग)

निर्णय:- सर्वानुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के संबंधित अधिकारियों/ शिक्षकों/कर्मचारियों की एकेडमिक लेवल पोस्ट के संदर्भ में राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेशांक एफ. 1 (4) शिक्षा-4/2016 दिनांक 01.10.2018 द्वारा जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों, लाइब्रेरियन, डी. पी.ई. वगैरह जो भी पद शामिल हैं, के अनुसार सातवें वेतनमान को स्वीकार कर अनुमोदन किया जाता है। साथ ही विश्वविद्यालय अधिकारियों/ शिक्षकों/कर्मचारियों का नवीन वेतनमान के अनुसार नियमानुसार फिक्सेशन कर वेतन भुगतान, एरियर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 04: राजभवन के प्रभारी अधिकारियों के साथ दिनांक 09.10.2018 को प्रातः 10:45-11:45 बजे की अवधि में हुई चर्चा एवं उनके निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के स्टेच्यूट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम की धारा 42 (k) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए नये पार्ट-IX एवं पार्ट-X को संशोधन द्वारा जोड़कर निम्नानुसार संशोधित स्टेच्यूट को स्वीकारने बाबत।

(प्राधिकार मण्डल शाखा)

THE STATUTE OF PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA SHEKHAWATI UNIVERSITY,
SIKAR

4.1 Proposed Amendments
PART-IX: REMUNERATION

| | |
|--------------|---|
| REMUNRRATION | 37. REMUNRRATION TO EXAMINERS/ TABULATORS/ CHECKERS ETC. |
| | 37-A (1) |
| | 37-A (2) The following is the scale of Remuneration allowed to Practical Examiners. |

| | |
|--|---|
| | 37-A (3) Remuneration for invigilators, Centre Superintendents and other exam works. |
| | 37-B Examination Section |
| | 37-C Professional Examinations |
| | 37-D Common Rates (per candidate form) for all conduct branchers whenever Manual Roll Lists are prepared and results are also prepared manually, filling, pasting and preparation of Q.P. |
| | 37-E Enrollment Section |
| | 37-F Dispatch Section |
| | 37-G Cash Branch |
| | 37-H Accounts and Finance Section |
| | 37-I Secrecy Section |
| | 38-A External Examiners associated with moderation work |
| | 38-B Disqualification of the members of the Board of Management for Remuneration |
| | 39. Empowering Clause to get work done through any agency/ institution functioning with digital/electronic or any other mechanical process |
| | 40. Authority of the Board of Management to lay down other procedures for effective conduct of the examination, preparation and declaration of the results and any other work ancillary to examinations |
| | 41. Date of commencement |
| | 42. Financial Limitation on payment of Remuneration |

(संलग्नक 5- REMUNRRATION TO EXAMINERS/ TABULATORS/ CHECKERS ETC. का प्रस्तावित प्रारूप: उक्त प्रारूप अध्यादेश के रूप में प्रबंध मण्डल द्वारा पूर्व में पारित किया जा चुका है, राजभवन के संबंधित प्रभारी अधिकारियों की सूचना/चर्चा अनुसार मात्र अध्यादेश के स्थान पर स्टेच्यूट के रूप में स्वीकार करने एवं स्टेच्यूट के नये नम्बर, भाग एवं अध्याय के साथ पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।)

निर्णय एजेण्डा बिन्दु 4.1: सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि राजभवन के प्रभारी अधिकारियों के साथ हुई चर्चा एवं उनके निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के स्टेच्यूट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम की धारा 42 (k) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए नये पार्ट-IX को संशोधन द्वारा जोड़ने को निम्नानुसार स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है।

PROPOSED DRAFT STATUTE 37-42 OF PART- IX REMUNERATION

Chapter-20

REMUNERATION TO EXAMINERS, TABULATORS, CHECKERS ETC.

Proposed draft of the Statute 37-42 PART- IX REMUNERATION has been approved by the Board of Management in its meeting dated 27-05-2019 vide resolution No. 4.1

PART-IX REMUNERATION

Chapter-20



REMUNERATION TO EXAMINERS, TABULATORS, CHECKERS ETC.

| REMUNERATION | <p>37. The University on the recommendation of the Board of Mangement shall decide the scale of remuneration to examiners, paper-setters, tabulators and persons associated with the activities concerned with the examinations on the following heads or the additional heads/rates decided from time-to-time. At present, the rate of remuneration for the various examination works shall be as follows:</p> <p>37-A (1).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------------|---------------|----|--|--|--|--|---------|--|-------------|--------|--|--|---------|--|-------------|-------|--|--|------|--|--|-------|--|--|--|----|--|--|--|--|---------|--|-------------|---------|
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">S. N.</th> <th style="width: 75%;">Name of Examinations</th> <th style="width: 20%;">Proposed Rate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>B.A., B.Sc., B.Com. (Pass & Hons.), B.P.Ed., B.Sc. Home. Science, B.Sc. Bio-Tech., B.Lib. Sc., B.Ed., Shiksha Shastri, LL.B. (A/P), B.A. LLB/B.Sc. LL.B./B.Com. LL.B. (Semester Scheme), Certificate course in Dramatics, Certificate/Diploma in Adult Education, Proficiency Test in Hindi/English. All Certificate/Diplomas courses of under graduate level including Foreign Languages, B.Mus./B.F.A., B.C.A., B.B.A.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>For setting each question paper in full:- with model answer key</td> <td style="text-align: right;">2,500/-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">without key</td> <td style="text-align: right;">1000/-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>For setting each section of Paper:- with model answer key</td> <td style="text-align: right;">1,250/-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">without key</td> <td style="text-align: right;">500/-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>For marking each Answer book in full or part with a minimum of Rs. 500/-</td> <td style="text-align: right;">20/-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>To each Head examiner for supervising the work of each co-examiner (if any).</td> <td style="text-align: right;">500/-</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"> <p>N.B.: Where the part of question paper containing objective type questions/descriptive type questions is provided separately, both parts of the question paper shall be treated as separate paper for the purpose of remuneration for setting the question paper, Separate remuneration shall be paid for both the parts of such question paper. Remuneration for evaluation of answer books shall include evaluation of objective type and very short answer type questions.</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>All Post-graduate Diploma including Law, M.A., M.Sc., M.Sc. (Home Sc.), M.Com., M.B.A. (Day/Executive courses) M.Ed., M.Lib. Sc., LL.M., M.C.A., M.Mus., M.F.A., M.J.M.C., M.P.E., M.I.B. M.F.C.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>For setting each question paper in full:- with model answer key</td> <td style="text-align: right;">3,000/-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">without key</td> <td style="text-align: right;">1,200/-</td> </tr> </tbody> </table> | S. N. | Name of Examinations | Proposed Rate | 1. | B.A., B.Sc., B.Com. (Pass & Hons.), B.P.Ed., B.Sc. Home. Science, B.Sc. Bio-Tech., B.Lib. Sc., B.Ed., Shiksha Shastri, LL.B. (A/P), B.A. LLB/B.Sc. LL.B./B.Com. LL.B. (Semester Scheme), Certificate course in Dramatics, Certificate/Diploma in Adult Education, Proficiency Test in Hindi/English. All Certificate/Diplomas courses of under graduate level including Foreign Languages, B.Mus./B.F.A., B.C.A., B.B.A. | | | For setting each question paper in full:- with model answer key | 2,500/- | | without key | 1000/- | | For setting each section of Paper:- with model answer key | 1,250/- | | without key | 500/- | | For marking each Answer book in full or part with a minimum of Rs. 500/- | 20/- | | To each Head examiner for supervising the work of each co-examiner (if any). | 500/- | | <p>N.B.: Where the part of question paper containing objective type questions/descriptive type questions is provided separately, both parts of the question paper shall be treated as separate paper for the purpose of remuneration for setting the question paper, Separate remuneration shall be paid for both the parts of such question paper. Remuneration for evaluation of answer books shall include evaluation of objective type and very short answer type questions.</p> | | 2. | All Post-graduate Diploma including Law, M.A., M.Sc., M.Sc. (Home Sc.), M.Com., M.B.A. (Day/Executive courses) M.Ed., M.Lib. Sc., LL.M., M.C.A., M.Mus., M.F.A., M.J.M.C., M.P.E., M.I.B. M.F.C. | | | For setting each question paper in full:- with model answer key | 3,000/- | | without key | 1,200/- |
| S. N. | Name of Examinations | Proposed Rate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | B.A., B.Sc., B.Com. (Pass & Hons.), B.P.Ed., B.Sc. Home. Science, B.Sc. Bio-Tech., B.Lib. Sc., B.Ed., Shiksha Shastri, LL.B. (A/P), B.A. LLB/B.Sc. LL.B./B.Com. LL.B. (Semester Scheme), Certificate course in Dramatics, Certificate/Diploma in Adult Education, Proficiency Test in Hindi/English. All Certificate/Diplomas courses of under graduate level including Foreign Languages, B.Mus./B.F.A., B.C.A., B.B.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | For setting each question paper in full:- with model answer key | 2,500/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | without key | 1000/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | For setting each section of Paper:- with model answer key | 1,250/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | without key | 500/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | For marking each Answer book in full or part with a minimum of Rs. 500/- | 20/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | To each Head examiner for supervising the work of each co-examiner (if any). | 500/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>N.B.: Where the part of question paper containing objective type questions/descriptive type questions is provided separately, both parts of the question paper shall be treated as separate paper for the purpose of remuneration for setting the question paper, Separate remuneration shall be paid for both the parts of such question paper. Remuneration for evaluation of answer books shall include evaluation of objective type and very short answer type questions.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | All Post-graduate Diploma including Law, M.A., M.Sc., M.Sc. (Home Sc.), M.Com., M.B.A. (Day/Executive courses) M.Ed., M.Lib. Sc., LL.M., M.C.A., M.Mus., M.F.A., M.J.M.C., M.P.E., M.I.B. M.F.C. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | For setting each question paper in full:- with model answer key | 3,000/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | without key | 1,200/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|----------|
| | For setting each section of the question paper (A or B):- | 1,500/- |
| | with model answer key | 600/- |
| | without key | |
| | For marking each Answer-book in full or part with a minimum of Rs. 600/- | 30/- |
| | Each Head-examiner for Supervising the work of his Co-examiner. (if any) | 500/- |
| | For examining each candidate in Viva-voce in M.A./M.Sc. and M.B.A., (Day & executive) with a minimum of Rs. 500/- to each Examiner (Internal/External) | 15/- |
| | For reading the Thesis/Dissertation of M.A., M.Sc., M.Com. and L.L.M. (to each examiner) with a minimum of Rs. 900/- to each examiner. | 300/- |
| | For conducting the Viva-voce test (wherever prescribed) on the thesis/dissertation/Project for the above examinations per candidate with a minimum of Rs. 900/- to each examiner. | 25/- |
| | For Reading the M.B.A. Project Report (Day/Executive) (Internal and External Examiner) per candidate. | 75/- |
| 3. | Doctorate Degree | |
| | For reading the Thesis of Ph.D. | 1,500/- |
| | For practical/Viva-voce Examination for Ph.D. | 1,200/- |
| | For reading the Thesis of D.Litt./D.Sc./LL.D. Degree . | 2,250/- |
| | For Viva-voce examination of D.Litt./D.Sc./LL.D. Degree . | 1,200/- |
| | M.Phil. Examination | |
| | For setting each question paper in full:- | |
| | with model answer key | 3,500/- |
| | without key | 1,500/- |
| | For marking each answer book (with a minimum of Rs. 500/-) | 50/- |
| | For assessing the Dissertation and conducting Viva-voce | 600/- |
| 4. | The following shall be the remuneration to Tabulator & Checker (when the work has not been outsourced for digital requirements) | |
| | (i) For tabulating the results of Main examination per candidate to each Tabulator (with a minimum of Rs. 200/-) to each Tabulator. | 6/- |
| | (ii) For checking the results of Main examination per candidate to each checker (with a minimum of Rs. 100/- to each checker) | 3/- |
| 5. | Remuneration to be paid to an examiner shall be restricted per annum as under:- | |
| | (i) In general cases | 60,000/- |
| | (ii) In such subject where separate remuneration is paid for setting the part of question paper (essay type questions and objective type questions) | 60,000/- |
| 37-A (2). The following is the scale of Remuneration Allowed to practical examiners:- | | |
| 6. | B.A., B.Sc., B.Com., (Pass & Hons.) B.Sc. Home Sc., B.Sc. Bio-Tech., B.P.Ed., B.Ed., LL.B., B.F.A., B.Mus., Shiksha Shastri, Diploma in Computer Application, BHMCT, BCA., B.B.A., B.Lib. Sc., & Doc., Certificate Course in Dramatics, Certificate Course in Lib. Sc., Certificate/Diploma/Post Diploma courses in MEL/Urdu. | |

| | | |
|----|---|-------|
| | For setting each question paper | 600/- |
| | For examining each candidate (with a minimum of Rs. 300/-) to External examiner, and to internal examiner (in case of non-collegiate candidates only) | 20/- |
| | N.B.:- The fee for paper setting shall be payable only if paper setter has set the question paper on I receipt of the offer from the university. The question of setting a paper would not arise if there is no co-examiner. | |
| 7. | M.A., M.Sc., M.Sc. Home Science, M.Ed., M.C.A., M.F.A., M. Mus., M.P.E., MJMC. | |
| | For examining each candidates (with a minimum fee of Rs. 500/-) to External Examiner and to internal examiner in case of non collegiate candidates only). | 20/- |
| 8. | M.B.A. (Day & Executive). | |
| | For Practical Quiz and Viva-voce and Practical Training per candidate to External Examiner only. (With a minimum of Rs. 1200/- to each External Examiner). | 45/- |

O 37-A (3). Remuneration for Invigilators, Center Superintendents and other exam work:-

| | | |
|----|--|------------------------------|
| 1. | Payments of Centre charges for the examinations:- | |
| | (a) Payment for the expenditure incurred at all the centers in connection with the examination will be made by the University at the following scales subject to marginal adjustments. Centre Superintendents are requested to keep the expenditure within this limit. Actual expenses incurred on railway freight, postal charges and octroi charges shall be paid extra on production of vouchers. | |
| | (b) Centre charges:- | |
| | (i) For all the candidates Rs. 4.00/- per candidate registered for the examination. | Rs. 4.00/- per candidate |
| | (ii) Payment for expenditure incurred on purchase of ice for supplying cold drinking water to the examinees will be made 0.30 paise per examinee or Rs. 45/- for each session whichever is on higher side. | |
| | (c) Norms of the staff which may be engaged by the Centre Superintendents for examination work:- | |
| | (i) Class III Staff: | |
| | No. of Registered Candidates | No. of Persons to be engaged |
| | Upto 200 candidates | Three |
| | Upto 500 candidates | Four |
| | For subsequent 500 candidates or part thereof | One |
| | (ii) Daftari: | |
| | One Daftari irrespective of number of candidates. | |
| | (iii) Class IV Staff: | |
| | Upto 100 candidates | Four |
| | Above 100 for 50 candidates or part thereof | One |
| | Electrician | One |
| | Pumpdriver | One |
| | Chowkidar | One |
| | For every 500 one extra peon may be engaged over and above the peon engaged as per above norms. | |
| | Note:- The number of peons engaged as per norms will be subject to the maximum number of 25 peons. | |
| | (d) Rate of Payments: | |
| | (i) Ministerial Staff (Class III) | 80/- Per session |
| | (ii) Daftari | 60/- |

| | | | | |
|----|---|-------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | Per session |
| | (iii) Peons | | | 60/- Per session |
| | (iv) Electrician, Pumpdriver and Chowkidar | | | 60/- Per Day |
| | In addition to the remuneration payable at the above rate to the staff actually engaged in each session, two days remuneration of two sessions each (one day prior to the commencement of examination for preparation and one day after the examination for closing and preparation of bill etc.) will also be paid to the following. | | | |
| | (i) Clerks | 04 | | |
| | (ii) Daftari | 01 | | |
| | (iii) Class IV | | Maximum number of peons engaged in a session during the examination | |
| | (e) Rate of Payment to the Lab. Staff:- (For one batch of 20 or less students) For duration of four hours per day: | | | |
| | (i) Lab. Staff in the grade of Lab. Assts. & Above | | | 80/- |
| | (ii) Lab. Staff other than as mentioned above and Class IV staff | | | 60/- |
| | (For extra hours to be increased proportionately). The Centre Superintendents should please send a bill for the above charges after the examinations are over. | | | |
| 2. | If anything is not clear in the above instructions the Superintendents are requested to refer the same to the Controller of Examinations. | | | |
| 3. | The scale of honorarium to the Centre Superintendents, Additional Centre Superintendents, Extra Additional Centre Superintendents, Assistant Centre Superintendents and Invigilators for the main as well as supplementary Examinations of the University will be as follows:- | | | |
| | | (1) | (2) | (3) |
| | | Per day of 3 hrs. | Per day of 2 session of 3 hrs each | Per day of 3 session of 3 hrs. each |
| | Centre Superintendents | 300 | 500 | 700 |
| | Additional Centre Supdt. | 200 | 350 | 500 |
| | Extra Additional Centre Supdt. | 200 | 350 | 500 |
| | Assistant Centre Supdt. | 160 | 300 | 400 |
| | Invigilators/Supervisors | 150 | | |
| 4. | In addition to the above a sum of Rs. 12/- per Non-Colligate candidate will be paid for conducting the examination, the distribution of which will be as under:- | | | |
| | (a) Principal (Centre Supdt.) Per Candidate | | | 3/- |
| | (b) Addl./Extra Addl. Centre Supdt. Per Candidate | | | 1.50/ |
| | (c) Asstt. Centre Supdt. Per Candidate | | | 1.50/ |

| | | |
|----|---|------|
| | (d) Ministerial Staff | 3/- |
| | (e) Class IV Employees Per Candidate | 3/- |
| | Total: | 12/- |
| | Note:- In case there is no Additional Centre Supdt. Or Extra Additional Centre Supdt. the amount of Rs. 1.00 per candidate will be divided fifty fifty between the Centre Supdt. and Asstt. Centre Supdt. | |
| 5. | Remuneration of Coordinators for assessment of answer books of Examinations | |
| | 1. Coordinator Per Packet | 20/- |
| | 2. One Ministerial Staff Per Packet | 9/- |
| | 3. One Cycle Sawar/Peon Per Packet | 6/- |
| | 4. Distribution/Collection of Packets to/from the examiners Per Packet | 65/- |
| | 5. Telephone Charges Per Packet | 6/- |
| | 6. Incentive for expediting the assessment of answer books in time Per Packet | 5/- |

Explanations: 1. Rates for the remuneration/honorarium for the examinations for the staff officers of U.G., P.G., Professional Conduct/Secrecy, including Enrolment, Miscellaneous, Dispatch, Cash and other Sections.

2. For the purpose of honorarium/overtime allowance an employee will be paid 15% of new basic pay.

3. A proper record of attendance and work shall be maintained by the team Incharge/Section Officers as the case may be, duly verified weekly by the concerned Asstt. Registrar no bill will be entertained. The bills will be countersigned by the concerned Dy. Registrar.

37-B EXAMINATION SECTION

For sorting OMR sheets, Forms, Checking of Application forms, Proof reading of check list and Roll List, putting Roll Nos., on examination forms of UG & PG Examinations.

| S. No. | Name of Examination | Form Checking Rate per Candidate | Payment for other works |
|--------|--|----------------------------------|-------------------------|
| A. | B.A/B.Sc., B.Com (Pass & Hons.), BCA & All Certificates in U.G. Exams. | @ Rs. 2.80 | @ Rs. 3.35 |
| B. | M.A., M.Sc., M.Com. (Prev.), MBA Pt. I & II, All P.G. Diplomas, PGDCA, M.Phil, DCWA Pt. I & II and Diploma in Foreign Languages, MCA Pt. I & II, M.Sc. I,II,III Semesters. | @ Rs. 3.90 | @ Rs. 3.35 |
| C. | B.A., B.Sc. & B.Com (Pass & Hons.), BCA, BBA Pt-II | @ Rs. 4.50 | @ Rs. 3.35 |
| D. | M.A., M.Sc., M.Com., MIB, MBA Pt. II Exams, MCA, M.Sc. IV Semester. | @ Rs. 6.15 | @ Rs. 3.35 |
| E. | B.A., B.Sc. & B.Com (Pass & Hons.), BCA, BBA Pt-III, B.A., B.Sc., B.Com Addl. Subject | @ Rs. 7.30 | @ Rs. 3.35 |

| | | |
|-------|--|--|
| Exams | | |
|-------|--|--|

37-C. PROFESSIONAL EXAMINATIONS

For checking of each application form of Professional Examinations, putting S.N proof reading of Checklist & Roll list, Putting Roll Nos., Checking of Roll Nos & Fixing Cen Seals on Admn. Cards and tearing admission card.

| S.No. | Name of Examination | Form Checking Rate per Form | Rs. | Payment for other works | Rs. |
|-------|---|-----------------------------|------|-------------------------|------|
| A. | LL.B. I Yr./ Certificate course in Yoga | @ | 2.80 | @ | 3.35 |
| B. | B.Ed/M.Ed/LL.B. I Yr. Due Papers and LL.B. I Yr., B.P.Ed. | @ | 3.90 | @ | 3.35 |
| C. | LL.M. Pt. I, PG Law Diplomas and MJMC Examinations, B.A. LL.B. (Hons.) I to X Semester, M.P.Ed., P.G. Dip. In Yoga, PG. Dip. In Dramatics and Phy. Edu. | @ | 5.00 | @ | 3.35 |
| D. | LL.M. Pt. II and LL.B. III Year Examinations. | @ | 6.15 | @ | 3.35 |

Refreshment charges @ Rs. 30/- per day per head will be paid to the staff of examinations conduct branches for a period of Fifty days.

37-D COMMON RATES (PER CANDIDATE FORM) FOR ALL CONDUCT BRANCHES WHENEVER MANUAL ROLL LISTS ARE PREPARED AND RESULTS ARE ALSO PREPARED MANUALLY, FILLING PASTING & PREPARATION OF Q.P.

| | | |
|----|---|-------------------------|
| A. | Preparation of Roll Lists | Rs. 3.35 |
| B. | Preparation of Numerical Return | Rs. 1.70 |
| C. | Preparation of Q.P. Statement (This applies where work is done on Manual Basis only). | Rs. 1.70 |
| D. | Putting serial no. on the application form as well as on the proforma to be sent to Computer Firm. | Rs. 0.55 |
| E. | Proof reading of Check List and Roll List | Rs. 1.10 |
| F. | Putting Roll Nos. on application forms and Admission Cards and the proforma to be sent to the Examination | Rs. 1.15 |
| G. | | |
| H. | Preparation of list of candidates appearing in Practicales/Carrying over practical marks. | Rs 1.70 |
| I. | Filling original document, in envelopes and pasting envelopes by class IV Staff. | @ Rs. 0.55 per Envelope |

Handwritten signature/initials

| | | |
|----|---|-------------------------|
| J. | Pasting of cut programme on the Question Paper Envelopes by class IV Staff. | @ Rs. 0.45 per Envelope |
| K. | Preparation of Q.P. Envelopes for sending to Cellar-I | @ Rs. 1.40 per Envelope |

The dealing Assistant, whosoever checks the examination forms must put his/her legible signatures on all the examination forms, checked by him/her or team members. Subject to the provisions and admissibility of the remuneration, it would be the duty of the concerned Senior Assistant/Section Officer to ensure that the remuneration on account of checking of examination forms is claimed only after ascertaining that the work has been completed satisfactory in time. Deduction of penalty shall be as per rates/amount prescribed for the purpose.

37-E. ENROLMENT SECTION

- (1.) Checking of 60%, of the total enrolment and eligibility forms of regular students for the examination at the rate of Rs. 2.80 per candidate (40%) of the work shall be considered to have been done during office hours;
- (2.) Checking and doing the enrolment of 90% of the total non-collegiate candidates for examinations @ Rs. 2.80 per candidate (10% work shall be considered to have been done during office hours).
- (3.) To put enrolment numbers on examination forms and checklist of regular students @ Rs 1.10 per candidate.
- (4.) Registration of the candidates manually in enrolment registers @ Rs. 1.10 per candidate.

37-F. DESPATCH SECTION

| S. No. | Name of Examination | (A) Ministerial | (B) Class IV |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Despatch of original documents to the students | @ Rs. 0.55 per letter | @ Rs. 0.55 per letter |
| 2. | Despatch of quarry letters | @ Rs. 0.55 per letter | @ Rs. 0.55 per letter |
| 3. | Despatch of bundles of answer-books | @ Rs. 6.70 per letter | @ Rs. 4.50 per letter |

37-G. CASH BRANCH

| | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Ministerial Staff of Cash Section | @Rs. 0.55 per form for the forms received with Bank Challan & Demand Draft/Bank Receipt of Colleges forms. |
| 2. | Ministerial Staff of Cash Section | @Rs. 1.70 per form for acceptance of D.D. received with the individual forms. |
| 3. | Class IV Staff | @Rs. 0.45 per form for acceptance of D.D. received with the individual forms. |

37-H. ACCOUNTS AND FINANCE SECTION

| S. No | Work | Remuneration |
|-------|--|--|
| 1. | Passing of bills and preparation of checks of remuneration to examiners. | Rs. 4.50 per bill to the staff of A&F III & IX with the stipulation that 50% work will be considered to have been done during office hours. The payment will be made only for the remaining 50% bills after normal office hours excluding deputation period. |
| 2. | Passing of bills and preparation of cheques of Centre Charges | 56.00 per bill (to be distributed among the staff of A&F III & IX from Peon upto S.O. level. |

37-I. SECRECY SECTION

1. The staff of secrecy sections shall be paid remuneration on job basis @ Rs. 0.55 per candidate for putting Roll Nos. on Practical Award Sheets.
2. The staff of secrecy section shall be paid remuneration on job basis for clearing R/L and other corrections @ Rs. 1.12 per correction i.e. Rs. 2.24 shall be payable for correction in both the T.Rs. Out of this amount Rs. 1.44 shall be payable to both the dealing Assistant, Rs. 0.55 shall be payable to S.O./Assistant, who checks and signs the T.R. and Rs. 0.25 per correction to class IV who is associated with the job Rs. 2.24 shall also be payable to the staff of Examination Conduct branch for preparing each mark-sheet manually in respect of RL/Absent cases. These Rs. 2.24 would be distributed among the staff of conduct branch as per distribution in Secrecy Section. This remuneration shall not be admissible for the cases cleared after 45 days from the date of declaration of the results.

Honorarium/Remuneration for the Over-Time Work

| S.No. | Section | O.T./Allowance Purpose | Number of Persons | Purpose |
|-------|---------|------------------------|-------------------|---------|
|-------|---------|------------------------|-------------------|---------|

| | | | | |
|----|-----------|---|--|--|
| 1. | Cellar-I | 20 days O.T., Hard duty, Conveyance, Refreshment | 08 persons including D.R. | Dispatch of question papers of Supplementary examinations. |
| 2. | Cellar-I | 30 days O.T., Honarium, Hard duty, Conveyance, Refreshment | 07 persons including D.R. | Dispatch of question papers of Professional exams. |
| 3. | Cellar-I | 135 days O.T., Hard duty, Conveyance, Refreshment two times daily. | Persons to be decided by the C.E. depending on the quantum of work and time available for the exams. | Dispatch of question papers of Main Examinations to the Examination Centres. |
| 4. | Cellar-I | 135 days O.T., Hard duty, Conveyance, Refreshment allowance (Staff posted in Cellar-II will get refreshment two times daily like QP despatch team of Cellar-I) | 04 persons from V.C. Secretariat, all staff of Cellar- II and persons from other sections, number of persons to be decided by the Controller of Exams depending upon quantum of work. | Collection of written /assessed answerbooks from Examination Centres, sorting of packets, delivery of dispatched answerbooks to local and out station examiners. Delivery and collection of answerbook packets to Coding Team, Local Assessment Teams etc. |
| 5. | Cellar-I | 15 days O.T., Hard duty, Conveyance, Refreshment | 07 persons of various cadres. - | Collection. Receipt. Delivery of answerbooks of Supplementary examinations. |
| 6. | Secrecy-I | 45 days O.T./Honarium, Hard duty, Conveyance & Refreshment | Officers and all the staff of Secrecy U.G. & P.G., Science, Commerce, Arts and Professional Section. | Paper Setting work of main and supplementary examinations. |
| 7. | Secrecy-I | 45 days O.T./Honarium, Hard duty, Conveyance & Refreshment | Officers and all the staff of | All the work of |
| 8. | Secrecy | 135 days | Officers (CE, DR | Dispatch of |

| | | | | |
|-----|-------------------|---|---|---|
| | y-I | O.T./Honorarium, Hard duty, Conveyance, Refreshment allowance. | and ARs) and all the staff of Secrecy and other sections. Number of persons to be decided by the C.E. depending on the quantum of work and the time available for declaration of main examination result. | answerbooks and declaration of results of main examinations 2016 including the work done at Local Assessment Centre. |
| 9. | Secrecy-I | 15 days O.T., Hard duty, Conveyance, Refreshment allowance. | 37 Persons of U.G. Science, Commerce and Arts including DR and one AR | Dispatch of answerbooks and declaration of results of Supplementary Exam. |
| 10. | Secrecy-I | 10 days O.T., Hard duty, Conveyance, Refreshment allowance. | 22 persons including one AR | All the work related to Self Finance Course. |
| 11. | Secrecy-I | O.T., Hard duty, Conveyance, Refreshment on actual hours basis beyond office hours not exceeding 40 days. | All the persons of Exam. E/PF including one AR | Dispatch of answerbooks and declaration of results of Professional exams held between January to April including the work done at Local Assessment Centre |
| 12. | Secrecy-I (Prof.) | O.T., Hard duty, Conveyance, Refreshment allowance on actual hour basis beyond office hours not exceeding 135 days. | All persons working in Professional Secrecy Branch under the supervision of the Section Officer. | For completing the work of dispatch of answerbooks and declaration of results of the exams held upto Dec. 31 including the work done at Local Assessment Centre |
| 13. | Secrecy-I | 30 days O.T., Hard duty, Conveyance, Refreshment allowance. | All the regular staff (upto S.O. level) of P.G. Secrecy Arts | All the work related to all M.Phil Exams. |
| 14. | U.G. Conduc | 20 days O.T. | 12 Persons for B.A. Pt. III, 06 | All work of conduct branch for |

↓ → 2

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|--|--|
| | t Branch B.A./B. Com. | | Persons for B.Com. Pt. III | Supplementary exams. |
| 15. | U.G. Conduc t Branch | 40 days O.T., Hard duty, Conveyance, Refreshment | 01 Person | From the commencement of the |
| 16. | U.G. Conduc t B.Sc. | 15 days O.T. | 05 persons for B.Sc. Pt- III | All work of conduct branch for Supplementary exams. |
| 17. | Control Room | 135 days O.T., Hard duty, Conveyance, Refreshment allowance | 02 persons Class III | Attending queries and handling all the information at the time of Main examinations. |
| 18. | G.Ad. | 135 days O.T., Hard duty, Conveyance, Refreshment allowance | 03 persons including one Peon of Store and 02 persons of Telephone Exchange | To assist Receipt Team, Collection Team and Dispatch Team. |
| 19. | A&F Team | 135 days O.T., Hard duty, Conveyance, Refreshment allowance | One -DR, One-AR, One-SO, One-Accountant, Three-Dealing Assts, One-Peon, One-Computer Opt., ----- --- One-SO One-Accountant, One-Peon for Cheque Section | To verify bills and make cash payment to all local examiners for 2016 main examinations. |
| 20. | U.M. Section | 60 days O.T., Hard duty, Conveyance, Refreshment allowance | All persons posted in U.M. Section | All the work related to Flying Squad and U.M. Cases. |
| 21. | Grieva nce Commi tee | 45 days O.T., Hard duty. Conveyance and Refreshment | 05 persons including 02 Class-IV | All the work related to Grievances against Question papers. |

| | | allowances | | |
|-----|-------------------------|--|---|---|
| 22. | Misc. Section | 20 days O.T., Conveyance and Refreshment allowance | 12 persons of various cadres | Dispatch of centre material to all the Examination Centres throughout the year. |
| 23. | Misc. Section | 45 days O.T. | 07 persons (01 S.O., 03 Class III, 03 Class-IV) | Processing of all examination forms and answerbooks to the Examination Centres. |
| 24. | Record Section | 20 days O.T | All the staff of section | All the work related to Main/Supplementary Exams. |
| 25. | Univer sity Press | 50 days O.T., Hard duty. Conveyance, Refreshment allowance | 40 persons of various cadres. | Printing of examination forms (Main & Suppl.) for |

Note : The remuneration of job based work shall be for 60% of examination forms out of total examination forms of regular and non-collegiate candidates so checked and remaining 40% will be deemed to have been checked during office hours for which no payment will be made remuneration for compilation work for professional examinations will be made © 4.00 per candidate. A group of three ministerial staff will do this job and the amount will be distributed equally among them.

1. In view of the fact that the results of U.G. and P.G. Examinations are to be declared in stipulated period, a number of persons are to be engaged in dispatch of Question Papers. Collection and Receipt of written answerbooks, dispatch of answerbooks and declaration of results shall be determined by the Controller of Examinations depending upon the quantum of work and the time available for the examinations and the declaration of results, Their names shall also be approved by him.
2. The Team Incharges of Receipt, various Dispatch Teams, DR (Conduct), AR UG, PG (Secy/Conduct) and AR Enrolment will be paid mobile recharge coupon © Rs. 500/-per month for four and a half months (135 days) to expedite results of 2016 examinations.
3. Officers of Examination Conduct and Secrecy Branches and the Controller of Examinations will be given the facilities of reimbursement of their residential telephone charges as per the facility given last year.
4. The members of Dispatch Team of question papers/answerbooks

and declaration of results will be provided meals from the University Guest House whenever they stay and work till midnight or overnight as per past practice.

5. The persons of Secrecy Section will not claim the remuneration and other allowances for more than total 135 days for dispatch of answerbooks and declaration of results (of main Examinations of Science/Conunerce/Arn and of all the examinations held upto December 31 in respect of Professional Courses; whether through traditional dispatch method or through local evaluation. Even if they work in other Dispatch Teams, the remuneration and other allowances would be limited to total 135 days for the work done by them for the dispatch of answerbooks related to their own section and/or other section of the Secrecy. If any person of secrecy section is associated with local assessment of answerbooks related to his section, over time and other allowances claimed by him for local assessment would be counted towards ceiling of overtime and other allowances for total 135 days. The concerned Section Officer and the Dealing Assistant of Secrecy Cell will assist the Convener, Local Assessment Centre for smooth work of assessment of answer books and declaration of results.

6. The staff (Officers, Ministerial and Class IV) will be paid per day Conveyance, Hard duty and Refreshment allowance as under for dispatch/receipt of answer books/question papers of Main and Supplementary Examinations (including professional examinations held in January to April):

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| (i) Conveyance Charges | @ Rs. 60/- per day |
| (ii) Hard Duty Allowance | @Rs. 50/- per day |
| (iii) Refreshment Allowance | @Rs. 50/- per day |

OTHERS

- (i) For the re-employed (Retired) employees, the calculation of overtime allowance will be 15% of their basic pay drawn in the month of retirement. The other allowances will be payable as equal as to other employees of their respective section, where they are posted.
- (ii) The remuneration for compilation of marks for B.A./B.Sc./B.Com Pt.-III (Pass and Hons.) and P.G. final examinations should be paid on the analogy of examinations of 2015.

| Examinations | No. of persons | Days |
|--------------------------------|----------------|---------|
| B.A. (Pass & Hons.) Pt: III | 6 | 40 each |
| B.Sc. (Pass & Hons.) Pt.-III | 6 | 20 each |
| B.Com. (Pass & lions) Pt.- III | 6 | 20 each |
| P.G. Arts | 14 | 20 each |
| P.G. Science | 3 | 15 each |
| P.G. Commerce | 3 | 15 each |

- (iii) The work of compilation of marks will be supervised by the Section Officer and Assistants of the section/branch and they will be paid remuneration of 17 days each. One class IV employees in each section will be paid O.T. allowance for 14 days.
- (iv) The Dy. Registrar & Asstt. Registrars posted in the Examination Conduct branches will be paid honorarium of 101 days for examinations.
- (v) The Section Officers of Examination Conduct (UG, PG & Prof.) Examination Dispatch, Enrolment, Cash and Assistants of Examinations Conduct Branches, U.G., PG, Professional, Cash, Enrolment Section, PA to CE/DR (Exam. I. & Exam. II) shall be paid over-time allowance for 168 days. Similarly two peons each attached with the C.E. and one peon attached with DR (Exam. I & II) and one peon of each conduct branch, one peon each in B.A. Part-1, II and III, including Professional, three peons in Enrolment and two peons of Cash Section, posted in the section for the purpose shall also get over-time allowance for 168 days.
- (vi) Driver attached with the C.E. shall also get over-time for 135 days.
- (vii) Wherever no separate conveyance allowance is given to the staff engaged in O.T./Job based work, 30% of total amount which is counted for remuneration/extra office hours will be considered as conveyance allowance. This will apply to the work done by all the sections of Examinations whether Conduct/Secrecy/ Revaluation/Miscellaneous/ Cash/ Dispatch/Enrolment etc.
- (viii) Rates of remuneration/honorarium of revaluation work will be as per last year contained in the office order No.

DEDUCTIONS:

In order to maintain accuracy, a penalty of Rs. 20/- per mistake per head shall be deducted for each work which is done on job based rates.

The payment of remuneration on the basis of the job rates as mentioned above will be made subject to the condition that the payment will be released after deduction of 10% amount from each bill which will be released after declaration of the results of R.L. cases before verifying the first bill, the concerned S.O. will certify that the Roll List with registration have been checked and corrected and correct compilation marks have been sent to the concerned computer firm in time.

The work of separating the examination forms will be done by the University staff for which remuneration @ Rs. 020 per form will be made to the staff, engaged for the purpose.

Rates of Honorarium/Remuneration for processing the Revaluation work relating to University Examination to be paid to the concerning employees of various sections as per norms of the last year's office order no. as follows:-

| | | |
|----|---------------------|---|
| 1. | A& F Section | Rs. 1.50 per receipt to Receipt Clerks Rs. 4.00 per Bill of Examiner to be paid to the person invited is payment of bills Rs. 3.00 per Voucher for refund of amount. |
| 2. | Revaluation Section | Rs. per answer books of 50% answer books revaluated. ---S.O. Rs. 0.30 per answer books of 100% answer of total answers revaluated. ---S.O. Rs. 5.00 per answer books of 50% answer books revaluated. ---Dealing Asstt. Rs. 3.00 per answer books of 100% answer books revaluated. ---Peon Rs. 1.00 per answer books of 50% answer books revaluated. ---Peon Rs. 1.50 per answer books of 100% answer books revaluated. ---Peon |

Steno, P.A./P.S. to C.E. and Deputy Registrar (Revaluation)

will be paid O.T./Remuneration of 15% of new Basic pay and conveyance for a period of maximum three months as per past practice. One clerk and one peon of revaluation section will also be paid 15% of their New Basic pay for one month only for transporting answer-books revaluation centre and attending to the queries made by the Centre. One driver is also be paid 15% of his New Basic Pay of Over Time Remuneration, Conveyance by three months for transporting answerbooks to Revaluation Centre.

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 3. | Despatch Section | Rs. 1.00 per candidate |
| 4. | Examination (Conduct) | Rs. 1.20 per mark-sheets for preparing Mark-Sheets wherever applicable. Rs. 0.20 per mark-sheets to class-IV keeping Mark-sheet in envelopes and pasting address slips on envelopes wherever applicable. |
| 5. | Record Section | Rs. 0.20 per application form for marking. Rs. 1.00 per application form for entering in the Register Rs. 0.30 per application form to class IV. |

↓ → 2 →

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|------------|------------|---------------|------------|-------------------------------|------------------|------------|-----------------|
| | 6. | Celler-II | <p>Rs. 0.60 per answer books to S.O. on total answer books retrieved for reevaluation.</p> <p>Rs. 0.20 per answer books to Assistant on total answer books retrieved for reevaluation.</p> <p>Rs. 0.10 per answer books to a peon attached with S.O. on total answer books retrieved for reevaluation.</p> <p>Rs. 2.50 per answer books to Ministerial Staff.</p> <p>Rs. 1.20 per answer books to Class IV staff, helping in retrieval of answer books.</p> <p>Rs. 3.00 per answer books to the scrutinizer as per previous orders of the V.C.</p> <p>Rs. 0.20 per candidate shall be paid to the official of Conduct/Secrecy sections authorized by the Controller of Examination for putting seal "RE CASES" and initials in TRs of Main Examination in which computerized mark sheets have been issued against the names of Students.</p> | | | | | | | | | |
| | 7. | Further the Vice-Chancellor has been pleased to order dated 15.07.2011 and office order No. Exam IV-A/2011/8087 dated 16.07.2011 for 12% increase in the job based rates for the mentioned in the Office Order No. Exam. IV-A/2011/CE/9100 dated 2011. | | | | | | | | | | |
| | 8. | <p>The Honorarium/Remuneration payable to the following as per rate given below.</p> <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Honorarium</td> <td style="text-align: center;">Conveyance</td> </tr> <tr> <td>Dy. Registrar</td> <td style="text-align: center;">Rs. 7500/-</td> <td style="text-align: center;">Rs. 1500/- (for three Months)</td> </tr> <tr> <td>Asstt. Registrar</td> <td style="text-align: center;">Rs. 5000/-</td> <td style="text-align: center;">Rs. 1500/- -do-</td> </tr> </table> | | | Honorarium | Conveyance | Dy. Registrar | Rs. 7500/- | Rs. 1500/- (for three Months) | Asstt. Registrar | Rs. 5000/- | Rs. 1500/- -do- |
| | Honorarium | Conveyance | | | | | | | | | | |
| Dy. Registrar | Rs. 7500/- | Rs. 1500/- (for three Months) | | | | | | | | | | |
| Asstt. Registrar | Rs. 5000/- | Rs. 1500/- -do- | | | | | | | | | | |
| <p>Note:- Wherever no separate conveyance allowance is given to the staff engaged over time work/job basis work, 30% of the total amount which is counted for remuneration/extra office hours will be considered as conveyance allowance. This will apply to the work done by all sections of Examinations (Conduct/Secrecy/Revaluation).</p> <p>The Vice Chancellor vide his order dated 24.08.2012 has been pleased to revise the Honorarium/Overtime Allowance and other</p> | | | | | | | | | | | | |

allowances viz. Hard duty, Conveyance & Refreshment Allowance for each P.G. Semester Examination of Arts/Science/ Commerce Faculties commencing from December 2011 onwards to the Officers (C.E., Dy. Registrar S-I, 2 Asstt. Registrars of Secrecy U.G. & P.G., 1 Asstt. Registrar of Cellar I & II) as under:-

| S. No. | Section | Persons | Work | Days |
|--------|------------------|---|--|--|
| 1. | - | C.E.-1, Dy. Registrar, Secy. Asstt. Registrar Secy. U.G./P.G.-2 P.A. (C.E., D.R., S-I)-2 | Paper Setting Practical Dispatch of answer books and declaration of results | 20 days 10 days 20 days |
| 2. | P.G. Science | Ministerial-7 Class-IV-3 | Paper Setting Practical Dispatch of answer books and declaration of results | 20 days 10 days 20 days |
| 3. | P.G. Commerce | Ministerial-4 Class-IV-3 | Paper Setting Dispatch of answer books and declaration of results | 20 days 20 days |
| 4. | P.G. Arts | Ministerial-4 Class-IV-4 | Paper Setting Practical Dispatch of answer books and declaration of results | 20 days 20 days |
| 5. | Cellar-I | Staff posted in Cellar-I including 1 A.R. | Printing of question papers and dispatch to examination centres | 20 days |
| 6. | Cellar-II | Staff posted in Cellar-II | Collection and distribution of answer books from/to examination centres/ ending term examiners | 20 days |

38. -A. All the external members associated with the moderation work shall be paid honorarium @ Rs. 1,000/- per day of duty but not exceeding Rs 10,000/- in all in one Academic Session.

38.- B. No remuneration will be paid to the members of the Board of Management. However, such amounts payable to the members of the Board of Management on account of examination remuneration shall be treated as a saving and the amount so shall be transferred to the "students-aid fund or other charitable fund" of the University in consultation with the members concerned.

39. Notwithstanding anything in the Ordinances for remuneration to examiners, tabulators, checkers etc., the University may for the purpose to ensure justice, transparency and speediness in the examination, assign any work falling in the above categories or any other new category to any agency/ institution functioning with digital/electronic or any other mechanical process.

12

| | |
|--|--|
| | <p>40. The University through its Board of Management may decide the procedure other than the procedure mentioned in the foregoing provisions for effective conduct of examinations, preparation and declaration of results and any work ancillary to the examination.</p> <p>41. The rate of remuneration to examiners, tabulators, checkers etc. under Ordinance 165 A to I and all other remunerations payable under this ordinance shall come into the force in toto or part thereof by the notification/notifications issued by the University. However, the contents of such notification must be approved by the Board of Management.</p> <p>42. <u>Financial Limitation on Payment of Remuneration:</u> <u>Notwithstanding anything in this chapter the following persons appointed or assigned the university work falling in the category of additional remuneration shall not be paid honorarium/ remuneration not exceeding Rs. One Lac in any academic session:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Paper-setter and Examiner for paper setting and evaluation of answer books together.</u> 2. <u>Additional Remuneration to administrative, ministerial, clerical and other non-teaching staff of the University for discharging their administrative, ministerial and other non-teaching work.</u> <p><u>Proviso:</u> <u>Provided that the university may with the approval of the Board of Management amend the limit of Rs. One Lac as and when the necessity arises by notification and recording the reasons/justifications.</u></p> |
|--|--|

THE STATUTE OF PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA SHEKHAWATI UNIVERSITY,
SIKAR

4.2 Proposed Amendments

PART-X: TRAVELLING AND HALTING ALLOWANCES

| | |
|-----------------------------------|--|
| TRAVELLING AND HALTING ALLOWANCES | 43. TRAVELLING AND HALTING/DAILY ALLOWANCES: Entitlement of University Employees and persons assigned any work by the university. |
| | 44. Implementation is subject to the provisions of Rajasthan Travelling Allowances Rules and amendment their under |
| | 45. Automatic acquiring the status of Statute by the amendments made time to time in the Rajasthan Travelling Allowances Rules |
| | 46. Persons who are subjects of these Rules |
| | 47. Persons who shall not be the subjects of these Rules |
| | 48. Entitlement |
| | 49. Coveyance Allowances |

| | |
|--|---|
| | 50. Provision for disqualification to receive T.A. and D.A. by the members of the Board of Management and Academic Council for attending Convocation. |
| | 51. Allowance for Railway and Road Journey, admissibility |
| | 52. Non admissibility of T.A. and D.A. when members attending to meetings. |
| | 53. T.A. and Halting Allowance for the Vice-Chancellor |
| | 54. T.A. to inspectors to inspect colleges |
| | 55. Travel by flight and D.A. |
| | 56. The authority of the Board of Management to settle the issues not covered by these rules. |
| | 57. Meaning of the word "Day" |
| | 58. Admissibility of the Allowances when concerned Journey on specific is more than eight hours. |
| | 59. Discretion of the Vice-Chancellor to allow air fair in exceptional cases. |
| | 60. Authority of the State Government to decide the expensive cities for the purpose of daily allowances |
| | 61. Admissibility of T.A. to the candidates when interview has been postponed and the candidate comes for interview when conducted succeeding time. |

(संलग्नक 5- TRAVELLING AND HALTING ALLOWANCES का प्रस्तावित प्रारूप: उक्त प्रारूप अध्यादेश के रूप में प्रबंध मण्डल द्वारा पूर्व में पारित किया जा चुका है, राजभवन के संबंधित प्रभारी अधिकारियों की सूचना/चर्चा अनुसार मात्र अध्यादेश के स्थान पर स्टेच्यूट के रूप में स्वीकार करने एवं स्टेच्यूट के नये नम्बर, भाग एवं अध्याय के साथ पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।)

निर्णय एजेण्डा बिन्दु 4.2: सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि राजभवन के प्रभारी अधिकारियों के साथ हुई चर्चा एवं उनके निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के स्टेच्यूट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम की धारा 42 (k) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए नये पार्ट-X को संशोधन द्वारा जोड़ने को निम्नानुसार स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है।

PROPOSED DRAFT STATUTE 43-61 OF Part-X TRAVELLING AND HALTING ALLOWANCES

Chapter-21

TRAVELLING AND HALTING/DAILY ALLOWANCES

Proposed draft of the Statute 43-61 Part-X TRAVELLING AND HALTING ALLOWANCES has been approved by the Board of Management in its meeting dated 27-05-2019 vide resolution No. 4.2

Part-X

TRAVELLING AND HALTING ALLOWANCES

Chapter-21

TRAVELLING AND HALTING/DAILY ALLOWANCES

| | |
|---|---|
| <p>TRAVELLING AND HALTING ALLOWANCES</p> | <p>43. The University employees and the persons assigned any work by the University shall be entitled to the Travelling and Halting (Daily) Allowance.</p> <p>44. A person entitled to the Travelling and Halting (Daily) Allowance shall be entitled for such allowances subject to the provisions of the Rajasthan Travelling Allowance Rules, 1971 and the amendment made thereunder from time-to-time.</p> <p>45. The amendments made time-to-time by the Rajasthan Government in the said Rules and in the Appendix-I to III under Rule 8 (1) and Appendix-IV (A) and Appendix-IV(B) under Rule 8 (2) shall be applicable for determination of the Travelling and Halting (Dearness) Allowance in the University. The said amendments shall automatically acquire the status of Ordinance under this provision.</p> <p>46. These rules shall be applied to the:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) employees of the University; (ii) members of the different Authorities of the University; (iii) outside experts/resource persons; (iv) examiners; (v) members of the Committees and Board constituted by the University; (vi) any other person assigned work of the University by the University with the approval of the Vice-Chancellor; <p>47. These rules shall not be applied to the:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) work-charged employees; (ii) employees paid from contingency; (iii) employees paid on contract where the terms of the contract specifically provide otherwise; (iv) employees on deputation from Central or State Government or from any other body, corporate where the terms of the deputation provided for the application of other Rules; <p>48. Entitlement:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i.) The entitlement to the Travelling and Halting (Daily) Allowance shall be determined on the basis of the Pay Scale plus Pay Band of the employee concerned irrespective of the fact that he is employee of this University or any other university, institution or an agency. (ii.) The Travelling and Halting (Daily) Allowance of a person superannuated shall be determined on the basis of the pay scale plus pay band drawn by him on the date of the superannuation and the pay scale plus pay band notified in equal by the appropriate Authority. (iii.) Persons, who have not served the University, Government or any other agency or holding the membership of any of the authority of the University shall be entitled to the train fare not exceeding 2nd A.C., Economic Class in Air-Travel or by Road. |
|---|---|

49. A conveyance allowance of Rs. 120/- or as approved and decided by the Board of Management for each day on which a meeting or meetings are attended shall be granted to officers and local members of authorities, Board and Committees who are not in receipt of monthly Conveyance allowance.

50. No T.A. or D.A. shall be paid to the members of the Board of Management and Academic Council for attending Convocation.

51. The allowance for railway and road journey shall be admissible by the shortest route. If the journey is performed at a fare greater than by the shortest route, the Vice-Chancellor may permit payment of the fare calculated according to the route actually taken, provided that he is satisfied that there was a considerable saving in time by taking the longer route or when the person invited was at the place having longer distance than the place of his residence and therefore, he has undertaken the longer route.

52. When a member has to attend two meetings of the University with an interval of less than four days between the meetings attended, excluding the days of meetings he shall be entitled to charge only daily allowance for the intervening days.

53. The Vice-Chancellor will be granted travelling and halting allowance on the rates admissible to him in accordance with his pay.

(i.) The Vice-Chancellor is entitled to use a Car allotted to him as a privilege. When the Vice-Chancellor is using a privileged car he will not be entitled for the Travelling Allowance for the Kilometers he has travelled by the Car.

(ii.) Actual Taxi fare where one has to be hired in continuation or otherwise of the rail journey.

(iii.) The Halting Allowance and Daily Allowance shall be paid to the Vice-Chancellor as per the Rajasthan Travelling Allowance Rules, 1971 and as per the amendments notified by the State of Rajasthan from time-to-time in the respective Pay Scale.

Proviso-1: Provided that when Vice-Chancellor has travel in a taxi and has paid rent exceeding to the rate decided by the University, he will be paid the actual rent.

Proviso-1: Provided further that when Vice-Chancellor uses University car for official visit to the place outside the territorial jurisdiction of the University he will not be required to seek permission of any authority.

54. The travelling allowance to Inspectors for inspecting colleges and to examiner shall be on the following scales:

(i) For journeys performed by rail, not exceeding 2nd A.C. by the shortest route.

Note : When it is possible to travel between two places by alternate routes, and the journey is performed at a fare greater than that by the shortest route, the Vice-Chancellor may permit

payment of the fare calculated according to the route actually taken provided that he is satisfied, after making such enquiry as he considers necessary, that there was a considerable saving in time by taking the longer route.

(ii) For road journeys as per the rate decided time-to-time by the State Government.

(iii) Daily allowance as per the rate decided time-to-time by the State Government.

55. The University shall be giving Flight travelling and Daily allowances in accordance with the scale shown in the schedule attached to these rules.

56. When the cases are not covered by these rules with regard to Travelling and Daily Allowance or there exists any ambiguity in the interpretation of these Rules or in otherwise situation the Board of Management shall have authority to decide the allowance payable.

57. "day" in these lines means a calendar day beginning and ending at midnight.

58. No allowance shall be admissible for a day of journey unless the absence from head-quarters of the person concerned on account of the journey on that day is for more than 8 hours.

59. Actual air fare will be paid in exceptional cases to persons who actually travel by air even though there are other means of communications, at the discretion of the Vice-Chancellor.

60. The expensive cities for the purpose of Daily allowance will be decided by the State Government time-to-time.

61. When the interviews have been postponed for any reason whatsoever and the candidates who have been turned up for Interview from the out station may be paid the Travelling Allowance not exceeding 2nd class sleeper or bus fare of a bus run by the State Corporation when he returns for second time for the Interview.

Subject to the provisions of the Travelling and Daily Allowance Ordinance of this University, Rule 8 (1) of the Rajasthan Travelling Allowance Rules, 2012 applicable to Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar

RATE OF ADMISSIBILITY OF MILEAGE ALLOWANCE FOR TRAVEL BY RAIL

| Category of Government servants | Actual rail fare of class of accommodation | Remarks (Applicable to all categories) |
|---------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A | Actual rail fare including reservation charges of any train in any class | 1. For this purpose (except travel by second class Non A.C.) the Government servant concerned shall enclose Ticket/ Cash Receipt (in original or photo copy) issued by Railway Authorities, in the Travelling Allowance Bill. 2. Officers not getting accommodation in the class to which they are entitled can travel either by the lower or higher, class whichever is available. In the former case they can claim actual fare of the lower class to which they are entitled and in the later case they may claim the Railway fare of the category to which they belong. 3. Claims for refund of unused tickets should be preferred to concerned Railways, Road transport and Airlines. The amount of cancellation fee charged by the Rail, Airlines or Road Transport concerned shall be reimbursed by the Government |
| B | Actual rail fare including reservation charges of A.G. Three Tier (May travel in Two Tier if the train does not have Three Tier A.C. Coach) or A.G. Chair Car, (excluding | |
| | Executive Class) | On furnishing a certificate from the controlling authority to the effect that the official journey had to be cancelled due to official reasons or unavoidable circumstances beyond the control of Government servant like sudden illness or death of near relative etc. The ordinary reservation fee in such cases may also be reimbursed to the Government servant without waiting for the acceptance of his claim for refund of cancellation charges by the Railways, Road Transport or Airline Authorities. Refund of Agency charges paid to a travel agency for booking journeys for his own convenience are not to be made. The cancellation charges shall be claimed in the Travelling Allowance Bill. |
| C | Actual rail fare including reservation charges of AC Chair Car or non A.C. Second Class Sleeper. | In unavoidable circumstances beyond the control of Government servant, the reservation fee or unused tickets cannot be produced for claims or cannot be cancelled by airline authority concerned, in such cases, Competent Authority as per Item No. 3 of rule 25 (2), shall be competent to reimburse the reservation fee I ticket charges, after fully satisfying with the circumstances and relevant documents. 4. Gunman accompanying a Minister while on tour may travel by rail in the Class the Minister is travelling, if, so desired by the Minister. He shall be entitled to rail fare accordingly, subject to recording of following certificate. "Certified that I have travelled in the same Class and compartment in which the Minister has travelled. 5. Railway Magistrate, Officers and men of Railways |
| D | Actual rail fare including reservation charges of non A.C. Second Class Sleeper. | |
| E | Actual rail are including reservation charges of non A.C. Second. Class Sleeper. | |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Police Force who are entitled to a free pass under the Free Pass Rules of the Railways for making journey on tour by rail are not entitled to claim rail mileage allowance at the rates prescribed in this Appendix. However if he is required to undertake journey on duty by road in continuation of rail journey he shall be entitled to claim road mileage allowance in addition to daily allowance admissible under these rules provided he travels by road to a place at a distance exceeding 15 kms from the rail point or returns thereto from a distance exceeding 15 kms.</p> |
|--|--|--|

↓ → 2

Rule 8(1) MILEAGE ALLOWANCE FOR TRAVEL BY ROAD

| Category of Government servants | Special Rates (Amount in Rs) | | Ordinary Rates (Amount in Rs) | |
|---|---|-----------------|--|----------|
| 1 | 2 | | 3 | |
| A & B | (i) Journey in a motor car owned by a Government servant. | Rs.9.00 per km. | (1) Actual Air-conditioned/ Deluxe (including Semi-Deluxe) / Volvo or any Upper Class Bus fare plus passenger tax and other tax charged, if any. | |
| | (ii) Journey by a Scooter/ motor cycle/ moped etc. owned by a Government servant. | Rs.3.00 per km. | (2) Mileage Allowance for journey to reach Airport/ Railway Station / Bug Stand from duty point/ residence and vice versa. | |
| | (iii) Journey by any other means of Conveyance like Auto Rickshaw including E-Rickshaw. | Rs.6.00 per km. | Place | Rate |
| | | | (i) Jaipur | Rs.150/- |
| | | | (ii) Jodhpur, Udaipur, Kota, Bikaner and Ajmer | Rs 100/- |
| (iii) All state Capitals in India (except Jaipur-) including Delhi and places connected by air-services | | | Actual charges paid in payment of fare for Taxi, Auto Rickshaw including E-Rickshaw, Scooter, Bus, Rail, Metro Train. | |
| (iv) Other places. | Rs, 60/- | | | |
| C, D & E | (i) Journey by a Scooter/ motorcycle I moped etc. owned by Government servant. | Rs.3.00 per km. | (1) Actual Ordinary/ Express or Mail Class bus. per km. . fare plus passenger tax plus other tax charged, if any. | |
| | (ii) Journey by Auto Rickshaw including E-Rickshaw. | Rs.6.00 per km. | (2). Mileage allowance for journey to reach airport / railway station I bus stand from duty point / residence and vice versa. | |
| | (iii) Journey on cycle or on foot. | Rs.2.00 per km. | Place | Rate |
| | | | (i) Jaipur | Rs.150/- |
| | | | (ii) Jodhpur, Udaipur, Kota, Bikaner and Ajmer | Rs 100/- |
| (iii) All state Capitals in India (except Jaipur-) including Delhi and places connected by air-services | | | Actual charges paid in payment of fare for Taxi, Auto Rickshaw including E-Rickshaw, Scooter, Bus, Rail, Metro Train. | |

| | | (iv) Other places. | Rs, 60/- |
|---|---|--------------------|----------|
| <p>Exception — The rates shown above shall be increased by 50% in respect of journey performed within 48 kms of international border by the following categories of employees of Police Department employed in border Intelligence Branch, D.S.B. and Counte Espionage Branch.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Circle Inspector 2. Sub-Inspector. 3. Assistant Sub-Inspector. 4. Head Constable 5. Constable. | <p>Note (ordinary rates) (1) A Government' servant who uses departmental vehicle (including staff car) for road journey from office or residence to Airport or Railway Station or Bus Stand and vice versa in connection with undertaking of a journey by air, rail or road shall not be entitled to road mileage allowance from duty point to Airport / Railway Station or Bus Stand and vice versa.</p> <p>(2) Where a Government servant alights from a train I bus I aeroplane in order to catch a connecting train/ bus/ Air service, from another railway station/ bus stand/ Airport, as the case may be, at a particular place en-route his destination, he shall be entitled to road mileage allowance at the rates indicated in pars (b) above of respective category.</p> <p>(3) The procedure laid down in Note 3 of Remarks column of Appendix-I shall apply in respect of refund of cancellation charges on unused tickets issued by Road Transport concerned.</p> <p>(4) Every Government servant who travels on duty in Air Conditioned I deluxe (including semi-deluxe) Volvo or any upper class bus shall be required to attach the bus ticket or its photocopy in the Travelling Allowance bill.</p> | | |
| <p>NOTE (special rates) :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Government servant shall not undertake journey by a Scooter/ Motor Cycle/ Moped etc. owned by him for a distance exceeding 25 kms. from his headquarter to places connected by rail or regular bus service 2. Road journey by a Scooter/ Motor Cycle/ Moped etc owned by a Government servant may, however, be made For a distance not exceeding 50 kms. from his headquarters between places neither connected by rail nor by regular bus service. 3. In case journey in a Motor Car owned by a Government servant where Toll Tax is charged the journey will be valid only on •production of receipt of payment of Toll Tax. The Government servant shall be entitled to toll tax charges actually paid by him in addition to the' mileage allowance as admissible under the above rule. . . 4. in case where husband and wife both are Government servants and the motor car is owned by either of them, the journey undertaken by either in the said motor car owned by his/ her spouse would he treated to have been performed in his/ her own car for the purpose of these rules. 5. In case journey is performed in a motor car owned by a Government servant, the Mileage Allowance will be limited to the Mileage Allowance admissible upto the limit of Rail Mileage Allowance. 6. For places which are not connected by Rail, the Special rates of Mileage Allowance limited to the Rail Mileage Allowance of nearest railway station and for rest distance special rates of Mileage Allowance shall be admissible. 7. Travel by own Car will be done only after prior approval of the Controlling Authority. 8. Places where short journeys are allowed such short journeys can be done by own car and for which Special rates of Mileage Allowance will be admissible. 9. For officials not entitled to travel by own vehicle, special rates of Mileage Allowance for journeys performed by own vehicle shall not be admissible. | | | |

[Handwritten signature]

Rule 8 (1)

MILEAGE ALLOWANCE FOR TRAVEL BY AIR

| Eligibility | Mileage Allowance |
|--|---|
| <p>1. Officers drawing Basic pay of Rs. 37,000' and above and Advocate General.</p> <p>Note:-</p> <p>1. Officers drawing basic pay of Rs. 80,000 and above can travel in Executive Class.</p> <p>2. Officers drawing pay of Rs. 37,000/- and above below Rs. 80,000/- can travel in Economy Class/Standard / Lowest Class of Airlines.</p> <p>Exception :-</p> <p>In such cases where journey involved is more than 500 kms. and cannot be performed over night by train, officers drawing basic pay Rs. 27,000/- and above but below Rs. 37,000/- shall be entitled to travel by Air by cheapest class, with prior approval of Controlling Authority Actual Air fare and reservation charges shall be admissible subject to production of Ticket and Boarding Pass.</p> <p>2. Government nominees attending meeting of Companies, Cooperative Societies, Autonomous Bodies, Industrial or Commercial Corporation or any other corporate body or statutory organization may travel by air, if the Company I Body pays air expenses even though they are not entitled to travel by Air under these rules.</p> <p>3. The Additional Director General of Police, ATS & SOG Rajasthan, Jaipur is authorized to grant permission to travel by Air to Anti Terrorist Squad personnel whenever the exigencies of work so require even though he is not entitled to travel by Air under these rules.</p> | <p>1. - One . actual single fare including tax and surcharge on fare, if any.</p> <p>2. For combined journey by Air and by rail or road, mileage allowance as permissible for such journeys shall be admissible except, for surface transport Included in Air fare.</p> <p>3. The amount of Ws fare charged by the Indian Airlines for road journey from IAC Office to Airport and vice versa separately in addition to the air fare shall not be admissible.</p> |
| <p>Remarks:</p> <p>1. (a) Air travel in economy class/ lower class can be done through any Airline.</p> <p>(b) All air ticket bookings shall be preferred directly with the airline or through official website of airline.</p> <p>(c) Tickets may also be booked through authorized booking agencies. However, facilitation fee/service charges to booking agency (by whatever nomenclature) which is not included in the tariff charged by the airline, shall not be reimbursed.</p> <p>(d) Element of Service Tax, Education Cess or any other tax/ fee/ cess charged by Government on air travel or booking of air tickets would be admissible for reimbursement to the individual officer.</p> | |
| <p>2. Officers drawing basic pay below Rs. 80,000 are expected to certify that they have purchased the ticket of Airlines of Economy Class / lowest fare for air journey.</p> <p>3. If a Government servant not authorized to travel by Air on tour, performs journey by Air to save time, he may draw mileage allowance, which would have been admissible if he had travelled by rail or road.</p> <p>4. Deputy Secretary, Private Secretary, Additional Private Secretary and Gunman accompanying the Chief Minister may travel by Air, if it is so desired by the Chief Minister. He shall be entitled to claim single fare of Air of the Category, which would have been admissible had he performed journey by rail or road.</p> <p>5. Expenses incurred on booking Air passage are not admissible except where actual expenses</p> | |

or travel by Air are allowed in any case.

6. The procedure laid down in Item 3 of Remarks column of Appendix — I shall apply in respect of refund of cancellation charges of unused Air ticket

7. If an officer undertakes journey by air, no departmental vehicle should be made to follow the office and the subordinate officers will also not perform journey to that station by Government vehicle during that period. A certificate to this effect will be recorded by the officer on his Travelling Allowance claim.

d. → 2-

Rule 8 (2)
RATES OF DAILY ALLOWANCE

| When a Government servant on tour stays in Government / Public Sector Circuit House/Guest House | | | |
|---|--|--|---|
| Category | All State Union Territory Capitals (Amount in Rs) | All places other than column No. 2 (Amount in Rs) | Remarks (applicable to all Categories of Government servants) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | 800 | 600 | Admissibility of Daily Allowance is subject to the conditions mentioned in the schedule appended to this Appendix |
| B | 700 | 500 | |
| C | 600 | 400 | |
| D | 550 | 350 | |
| E | 350 | 250 | |

[Handwritten signature]

Rule 8(2)

DAILY ALLOWANCE RATES FOR BOARDING AND LODGING

When the Government servant stays in a hotel or other establishment providing Boarding and/or Lodging on tour at fixed rate provided that such hotel/ institution is registered /has obtained- license from the Competent Authority viz. Local Bodies, Sales Tax Authority, GST Authority, Service Tax Authority etc.

| Category | All State / Union Territory Capitals (Amount in Rs) | All places other than column No. 2 (Amount in Rs) |
|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A | 3000 | 2000 |
| B | 2500 | 1800 |
| C | 2000 | 1500 |
| D | 1500 | 1000 |
| E | 1000 | 700 |

Remarks (applicable to all Categories of Government servants):

(1) Admissibility of Daily Allowance is subject to the conditions mentioned in the schedule appended to this Appendix.

(2) The rates for boarding and lodging charges shall be admissible only if an official stays in a Hotel/

Circuit House/ Dak Bungalow/ or any other institutions like Young-Men's Christian Association, Cricket Club of India, Youth Hostels, etc., which provide for Lodging arrangement at scheduled tariff and produce vouchers/ receipts in token of payment made on account of hotel accommodation charges. In case the actual charges paid on account of boarding and lodging are less than the ceiling prescribed in column 2 and 3 of this Appendix, actual charges paid shall only be admissible.

(3) Where the actual hotel charges paid are inclusive of accommodation and meals and are less than the ceiling prescribed under column 2 and 3 the actual charges paid shall only be admissible.

(4) In case accommodation is not available in Bikaner House, Rajasthan House, Jodhpur House at New Delhi, the Daily Allowance shall be admissible at rates prescribed for Delhi shown in column 2 of this appendix, subject to the conditions mentioned in point No. (2) above. The official claiming the Daily Allowance for New Delhi shall record a certificate on the Travelling Allowance claim to the effect that he actually stayed in a Hotel due to non- availability of accommodation in any of the aforesaid State Circuit Houses.

(5) Actual taxi charges admissible under Rule 11 shall be in addition to Daily Allowance.

(6) The provisions as-contained in General Administrative (Gr.1) Department Order No. F.2(10) GA/1182 dated 20.05.1982 shall also continue to be operative so far as they relate to Government officers mentioned therein at their option, at Delhi.

(7) These rates are inclusive of all types of taxes.

(8) In case accommodation is not available in Bikaner House, Rajasthan House at New Delhi, officers can stay in hotel I institution, at prescribed rates after obtaining NAC from Rajasthan House, except officers of Category 'A', who can stay in hotel without obtaining NAC.

(9) Officers of such departments, which have their Rest House (s) / Guest House(s) in Delhi can stay in hotel only after obtaining NAC from such Guest House / Rajasthan House.

2. The existing rate for local short journey under rule 9A shall be substituted by the following, namely:

| Category | Mode of travel | Rates |
|----------------------|----------------|---|
| Category 'A' and 'B' | Own car | Rs. 9.00/- per km subject to maximum of Rs. 600/- per |

| | | |
|--|--------------------------|---|
| | | month. |
| | Own Scooter /Motor Cycle | Rs.'3.00/- per km subject to maximum of Rs. 300/- per month |

Explanation: No person claiming Travelling Allowance and Daily Allowance shall be entitle for incidental charges.

एजेण्डा बिन्दु संख्या 05: राजभवन के प्रमारी अधिकारियों के साथ दिनांक 09.10.2018 को प्रातः 10:45–11:45 बजे की अवधि में हुई चर्चा एवं उनके निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रस्तावित ड्राफ्ट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम की धारा 44 एवं 45 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए अध्यादेशों के प्रस्तावित ड्राफ्ट को विश्वविद्यालय की प्रबंध मण्डल द्वारा पारित करवाकर विश्वविद्यालय के पत्रांक PDUSU/VCS/Ordinances/2018/97 दिनांक 11.06.2018 द्वारा विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति जी को स्वीकार करने के लिए भेजा गया था, उस प्रस्तावित अध्यादेशों के प्रारूप के भाग-III REMUNRRATION के अन्तर्गत प्रस्तावित अध्यादेश क्रमशः 165–169 एवं 169– A के द्वारा REMUNRRATION TO EXAMINERS/ TABULATORS/ CHECKERS ETC. के प्रारूप को स्वीकार करने के लिए भेजा गया था, उस भाग को अध्यादेशों की सूची में से हटाकर शेष अन्य अध्यादेशों का संशोधित प्रारूप स्वीकार करने बाबत। (प्राधिकार मण्डल शाखा)

प्रस्तावित अध्यादेशों की क्रम संख्या का संशोधित प्रारूप:

| Passed by Resolution | Part | Proposed Ordinances | | Page No. |
|---|------------------|---------------------|---|----------|
| | | Ordinance No. | Proposed Chapter and Contents | |
| Board of Management 06-01-2018 and 28-03-2018 | Academic Council | | | |
| 1.1 | 2.1 | 1-25 | 1.1 Admission of Students | 1 |
| 1.2 | 2.2 | 26 | 1.2 Maximum Duration to pass any academic programme/ course including clearance of Backlog Papers/Courses | 24 |
| 1.3 | 2.3 | 27-37 | 1.3 Enrolment and Migration of Students | 26 |
| 1.4 | 2.4 | 38-40 | 1.4 Fee Structure and Freshship | 28 |
| 1.5 | 2.5 | 41-70 | 1.5 Examination and Attendance to Keep Academic Term and appear in Examination | 35 |
| 1.6 | 2.6 | 71-92 | 1.6 Non Regular Students: Ex-Student and Non-Collegiate Students | 43 |

| | | | | | |
|--|------|---|---------|--|-----|
| 1.7 | 2.7 | | 93-103 | 1.7 Supplementary Examination | 48 |
| 1.8 | 2.8 | Part-II Research Study: M.Phil./Ph.D./D.Litt./ D.Sc./ LL.D. | 104-115 | 1.8 M.Phil. and Ph.D. Ordinances | 51 |
| 1.9 | 2.9 | | 116-130 | 1.9 Ordinances Relating to the Post Doctorate Degree in Arts and Social Science: D.Litt. | 87 |
| 1.10 | 2.10 | | 131-148 | 1.10 Ordinances Relating to the Post Doctorate Degree in Science: D.Sc. | 90 |
| 1.11 | 2.11 | | 149-164 | 1.11 Ordinances Relating to the Post Doctorate Degree in Law: LL.D. | 93 |
| 1.13 | 2.13 | Part-III Degree and Diploma: Convocation, Medals and Prizes | 165-166 | 1.12 Degree and Diploma | 99 |
| 1.14/ BOM Resolution 3.1/ 3.2 | 2.14 | | 167-181 | 1.13 Convocation Note-1: The earlier Ordinance 177 has been repealed and replaced by new amended ordinance 177. Note-2: The earlier Ordinance 180 has been repealed and replaced by new amended ordinance 180. | 102 |
| 1.15 | 2.15 | | 182-200 | 1.14 Medals and Prizes | 105 |
| 1.16 | 2.16 | Part-IV Scholarship, Endowments and Prizes | 201-217 | 1.15 Scholarship | 108 |
| 1.17 | 2.17 | | 218-220 | 1.16 Conditions for accepting Endowments or Scholarships, Medal and Prizes etc. | 112 |
| 1.18 | 2.18 | Part-V Services to Nation | 221-227 | 1.17 N.C.C./N.S.S./Rover Range Training | 113 |
| 1.19 | 2.19 | Part-VI Recruitment and Conditions of Service | 228-234 | 1.18 Recruitment and Conditions of Service of the Teaching Staff | 115 |
| 1.20 | 2.20 | | 235-278 | 1.19 Recruitment and Conditions of Service of the Teaching Staff: General Terms and Conditions | 137 |
| 1.21 | 2.21 | | 279-280 | 1.20 Promotion: Career Advancement Scheme for Teachers | 155 |
| 1.22 | 2.22 | | 281 | 1.21 College Principal | 167 |
| 1.23 | 2.23 | | 282 | 1.22 Recruitment and Conditions of Service of the Non-Teaching Staff | 169 |
| 1.24 | 2.24 | | 283-284 | 1.23 Recruitment: Selection Committee for Teachers, Officers and other for Direct Recruitment | 197 |
| 1.25 | 2.25 | | 285-288 | 1.24 Promotion for Non-Teaching Staff | 202 |
| 1.26 | 2.26 | | 289-293 | 1.25 Seniority and Other Service Benefits | 206 |

| | | | | | |
|------|------|---|---------|---|-----|
| 1.27 | 2.27 | | 294-295 | 1.26 Leave | 208 |
| 1.29 | 2.29 | | 296 | 1.27 Medical Attendance Rules | 237 |
| 1.30 | 2.30 | Part-VIII Conditions of Admission of Institutions | 297 | 1.28 Conditions of Admission of Institutions | 260 |
| 1.31 | 2.31 | Part-IX University Boards | 298 | 1.29 University Boards: Empowering Clause | 264 |
| 1.32 | 2.32 | | 299 | 1.30 Health, Discipline and Residence Board | 265 |
| 1.33 | 2.33 | | 300 | 1.31 Board of Extra Mural Study | 268 |
| 1.34 | 2.34 | | 301 | 1.32 Board for Hostels | 270 |
| 1.35 | 2.35 | | 302 | 1.33 Sports Board | 272 |
| 1.36 | 2.36 | | 303 | 1.34 University Planning and Monitoring Board | 277 |
| 1.37 | 2.37 | | 304 | 1.35 Publication Board | 278 |
| 1.38 | 2.38 | | 305 | 1.36 Library Board | 279 |
| 1.39 | 2.39 | | 306 | 1.37 Admission Board | 280 |
| 1.40 | 2.40 | | 307 | 1.38 Translation Board | 281 |

नोट:

- (i) पूर्व में प्रस्तावित ऑर्डिनेन्स के भाग-III Remuneration जो ऑर्डिनेन्स संख्या 165-169 A में प्रस्तावित है, को अध्यादेश के प्रारूप में से हटाकर के स्टेच्यूट के रूप में सम्मिलित करने के निर्णय प्रस्तावित है। तदनुसार सभी भागों की संख्या को एक क्रम कम करके उपर्युक्त सारणी में दी गयी संख्या को स्वीकार करने का प्रस्ताव है।
- (ii) पूर्व में प्रस्तावित ऑर्डिनेन्स के भाग-VIII Recruitment and Conditions of Service के चैप्टर संख्या 28 के ऑर्डिनेन्स संख्या 301-309 में प्रस्तावित है, को अध्यादेश के प्रारूप में से हटाकर के स्टेच्यूट के रूप में सम्मिलित करने के निर्णय किये जाने का प्रस्ताव है।
- (iii) नोट संख्या 1 एवं 2 में उल्लेखित प्रस्तावित अध्यादेश प्रारूप को अध्यादेश की श्रेणी में से हटाये जाने के कारण अध्यादेश संख्या 165 से 331 तक के अध्यादेशों की संख्या को क्रमशः 165-307 के अध्यादेश संख्या के अन्तर्गत प्रस्ताव में संशोधित स्वरूप को संलग्न सूची अनुसार अध्यादेश संख्या परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव है।

(संलग्नक 7- Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Ordinances का प्रस्तावित प्रारूप : उक्त प्रारूप अध्यादेश के रूप में प्रबंध मण्डल द्वारा पूर्व में पारित किया जा चुका है, राजभवन के संबंधित प्रभारी अधिकारियों की सूचना/चर्चा अनुसार मात्र अध्यादेश भाग-III Remuneration जो ऑर्डिनेन्स संख्या 165-169 A एवं भाग-VIII Recruitment and Conditions of Service के चैप्टर संख्या 28 के ऑर्डिनेन्स संख्या 301-309 को अध्यादेश की सूची से हटाने एवं स्टेच्यूट के रूप में स्वीकार करने के कारण संबंधित अध्यादेशों में भाग संख्या, चैप्टर संख्या एवं अध्यादेश संख्या में परिवर्तन के साथ ऊपर लिखित स्वरूप में नये भाग संख्या, चैप्टर संख्या एवं अध्यादेश संख्या के साथ अनुमोदित करने हेतु प्रस्तुत है।)

निर्णय: सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि राजभवन के प्रभारी अधिकारियों के साथ हुई चर्चा एवं उनके निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रस्तावित ड्राफ्ट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी

विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम की धारा 44 एवं 45 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए अध्यादेशों के प्रस्तावित ड्राफ्ट को विश्वविद्यालय की प्रबंध मण्डल द्वारा पारित करवाकर विश्वविद्यालय के पत्रांक PDUSU/VCS/Ordinances/2018/97 दिनांक 11.06.2018 द्वारा विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति जी को स्वीकार करने के लिए भेजा गया था, उस प्रस्तावित अध्यादेशों के प्रारूप के भाग—III REMUNRRATION के अन्तर्गत प्रस्तावित अध्यादेश क्रमशः 165—169 एवं 169— A के द्वारा REMUNRRATION TO EXAMINERS/ TABULATORS/ CHECKERS ETC. के प्रारूप को स्वीकार करने के लिए भेजा गया था, उस भाग को अध्यादेशों की सूची में से हटाकर शेष अन्य अध्यादेशों का संशोधित प्रारूप संलग्नक 6 के अनुसार अध्यादेशों के नम्बर में संशोधन कर स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 06: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रश्न-पत्र सेट करने वाले विशेषज्ञों के पारिश्रमिक का भुगतान की अनुमति।

(संस्थापन शाखा, वित्त विभाग)

निर्णय: सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रश्न-पत्र सेट करने वाले विशेषज्ञों के पारिश्रमिक का भुगतान की अनुमति को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है एवं प्रश्न-पत्र सेट करने वाले विशेषज्ञों के पारिश्रमिक की अविलम्ब भुगतान करने की स्वीकृति विश्वविद्यालय की अधिसूचना Estt./Rect./2018/14 दिनांक 13.07.2018 प्रदान की जाती है तथा उक्त सूचना का अनुमोदन किया जाता है।

(संलग्नक 8: अधिसूचना Estt./Rect./2018/14 दिनांक 13.07.2018)

नोट: 1. उपरोक्त पदों के लिए विज्ञापन करने के बाद स्थापित प्रक्रियानुसार एक पद के एक प्रश्न-पत्र के सिवाय सभी पदों के अन्य सभी पेपर सेट करवा दिये गये, परन्तु उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मानव संसाधन मंत्रालय, यू.जी.सी. एवं राजभावन के पत्रानुसार शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है। तत्पश्चात अशैक्षणिक पदों के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ करनी थी, परन्तु चुनाव आचार संहिता एवं प्रक्रिया संबंधी अन्य बाध्यताओं के कारण प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इसी दरमियान कुछ अशैक्षणिक पदों की भर्ती के लिए राजभवन द्वारा यह राय मांगी गयी कि राज्य सरकार 3600/- या उससे कम ग्रेड पे के पदों की भर्ती राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है, अतः इस संदर्भ में जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक भर्ती प्रक्रिया लंबित रहने की संभावना है। उक्त परिस्थितियों में प्रश्न-पत्र सैटर्स का भुगतान लंबे समय से लंबित होने के कारण देय किया जाना प्रस्तावित था।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 07: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के द्वारा शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रश्न-पत्र सेट करवाने वाले कोर्डिनेटर को देय पारिश्रमिक, छंटनी समिति को देय पारिश्रमिक तथा संबंधित पद के किसी विषय के दोनों प्रश्न-पत्रों को मोडरेट करवाने वाली समिति को देय पारिश्रमिक का निर्धारण की अधिसूचना को ग्रहण करना एवं भुगतान की अनुमति।

(संस्थापन शाखा, वित्त विभाग)

निर्णय: सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के द्वारा शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रश्न-पत्र सेट करवाने वाले कोर्डिनेटर को देय पारिश्रमिक, छंटनी समिति को देय पारिश्रमिक तथा संबंधित पद के किसी विषय के दोनों प्रश्न-पत्रों को मोडरेट करवाने वाली समिति को देय पारिश्रमिक का निर्धारण की अधिसूचना को ग्रहण कर अनुमोदित किया जाता है एवं उनके पारिश्रमिक की अविलम्ब भुगतान करने की स्वीकृति विश्वविद्यालय की अधिसूचना Estt./Rect./2018/14 दिनांक 13.07.2018 प्रदान की जाती है तथा उक्त सूचना का अनुमोदन किया जाता है।

(संलग्नक 8: अधिसूचना Estt./Rect./2018/14 दिनांक 13.07.2018)

नोट: वर्तमान बैठक के एजेण्डा निर्णय संख्या 6 की नोट देखिये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 08: राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर से प्राप्त पत्रांक एफ.1 (ए) (4) आरबी/2019/3133 दिनांक 16.04.2019 के अनुसार ग्रेड-पे रू. 3600/- या इससे कम ग्रेड-पे के अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा किये जाने के संबंध में चर्चा।

(संलग्नक 7- राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर से प्राप्त पत्रांक एफ.1 (ए) (4) आरबी/2019/3133 दिनांक 16.04.2019)

निर्णय: सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर से प्राप्त पत्रांक एफ.1 (ए) (4) आरबी/2019/3133 दिनांक 16.04.2019 के अनुसार ग्रेड-पे रू. 3600/- या इससे कम ग्रेड-पे के अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा किये जाने के संबंध में बैठक में सम्मति नहीं हो पाने के कारण इस एजेण्डा बिन्दु पर विस्तृत सूचना के साथ चर्चा करने हेतु अगली बैठक तक के लिए निर्णय स्थगित किया जाता है। इस संदर्भ में सभी सदस्यों की एक राय थी कि इस निर्णय के पीछे सरकार के पत्र द्वारा पारदर्शिता रखने को कारण के रूप में दर्शाया गया था जिसको सदस्यों ने उचित नहीं माना एवं आपत्ति इस हेतु दर्ज करवायी कि इसका तात्पर्य यह होता है कि विश्वविद्यालय नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं रख सकता है जबकि सभी शैक्षणिक पदों एवं ग्रेड-पे रू. 3600/- से अधिक वाले अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार विश्वविद्यालय में ही निहित रखने का प्रावधान है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 08: विश्वविद्यालय के कुलसचिव का प्रभार डॉ. राजेन्द्र सिंह एवं परीक्षा नियंत्रक के पद का प्रभार डॉ. अशोक कुमार महला को दिये जाने के विश्वविद्यालय के निर्णय की सूचना ग्रहण कर अनुमोदित करने एवं उनके पदों से संलग्न सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्वों के संपादन हेतु अधिकृत करने के निर्णयों का प्रभार दिये जाने के तिथि से अनुमोदन।

निर्णय: सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के कुलसचिव का प्रभार डॉ. राजेन्द्र सिंह एवं परीक्षा नियंत्रक के पद का प्रभार डॉ. अशोक कुमार महला को दिये जाने के विश्वविद्यालय के निर्णय की सूचना ग्रहण कर अनुमोदित करने एवं उनके पदों से संलग्न सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्वों के संपादन हेतु अधिकृत करने के निर्णयों का प्रभार दिये जाने के तिथि से अनुमोदन किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 09: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट की नियुक्ति पर चर्चा।

निर्णय: सर्वानुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट की नियुक्ति करने के लिए विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक को अधिकृत किया जाता है।
(वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.05.2019 के एजेण्डा निर्णय संख्या 04 का अनुमोदन)

↓ → 2 -

पूरक एजेण्डा:

पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 01: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के स्टेच्यूट 23 के संदर्भ में स्टेच्यूट के अध्याय 3 के अन्तर्गत स्टेच्यूट 6 के क्लोज (13) के उपखण्ड (iv) के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2016-17 में निम्न विवरणानुसार पदवियों के लिए अधिकृत विद्यार्थियों पर पदवी कनफर करने हेतु प्रबंध मण्डल को अनुशंसा:

The University specifies the following Degrees under different Faculties:

| A | | Faculty/Discipline: Arts/Humanities/Social Sciences | | | | | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medel |
|--|-------------------------------|---|--------|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|---|
| Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2017-18 | Specified Degree | | Level | Minimum Duration (in Years) | Entry Qualification | Details of the Students proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2016-17 | | |
| Yes | Abbreviated | Expanded | | | | | | |
| | M.A. (Drawing) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-1 | 46 | Pooja Prajapat |
| | M.A.(English) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-2 | 658 | Pooja Gangani |
| | M.A. (Economics) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-3 | 90 | Pooja Jangir |
| | M.A. (Geography) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-4 | 1774 | Laxmi Saini |
| | M.A. (Hindi) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-5 | 2936 | Annu |
| | M.A. (History) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-6 | 2244 | Sangeeta Kumari |
| | M.A. (Political Sc.) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-7 | 4790 | Babita Kumari Kalwania |
| | M.A. (Public Administration.) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-8 | 233 | Sunita |
| | M.A. (Sanskrat.) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-9 | 294 | Neetu Kumari |
| | M.A. (Sociology) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-10 | 342 | Anita Saini |
| | M.A. (Urdu) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-11 | 80 | Akhilash Garva |

| B | | Faculty/Discipline: Commerce | | | | | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medel |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------|---------|-----------------|-------------------------|--------------------|---|
| Degree proposed to be awarded in | Specified Degree | | Level | Minimum | Entry Qualifica | Details of the Students | | |
| | Abbreviate | Expanded | | | | | | |

| the proposed convocation for the year 2017-18 | d | | | Duration (in Years) | tion | proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2016-17 | | |
|---|---------------|--------------------|--------|---------------------|------------|---|------|---------------|
| Yes | M.Com. (ABST) | Master of Commerce | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-12 | 669 | Madhu Saini |
| | M.Com. (BADM) | Master of Commerce | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-13 | 963 | Reetu Giri |
| | M.Com. (EAFM) | Master of Commerce | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-14 | 1117 | Pooja Bagaria |

| C | Faculty/Discipline: Science | | | | | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medel |
|-----|--|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------------------|---|
| | Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2017-18 | Specified Degree | | Level | Minimum Duration (in Years) | | |
| Yes | Abbreviated | Expanded | | | | | |
| | M.Sc. (Bio-Technology) | Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-15 | Neelam Jangir |
| | M.Sc. (Botany) | Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-16 | 470 Sanju Poonia |
| | M.Sc. (Chemistry) | Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-17 | 700 Renu Navaria |
| | M.Sc. (Home Science) | Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-18 | 06 Chanchal Badetia |
| | M.Sc. (Information Technology) | Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-19 | Gargi Sharma |
| | M.Sc. (Mathematics) | Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-20 | 573 Ankita kumari |
| | M.Sc. (Physics) | Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-21 | 274 Mahipal Kumawat |
| | M.Sc. (Psychology) | Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-22 | 09 Manisha Choudhary |
| | M.Sc. (Zoology) | Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-23 | 345 Divya Saini |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|--------|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|---|
| D | Faculty/Discipline: Education | | | | | | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medal |
| Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2017-18 | Specified Degree | | Level | Minimum Duration (in Years) | Entry Qualification | Details of the Students proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2016-17 | | |
| Yes | M.Ed. | Master of Education | Master | 2 | B.Ed. | Annexure-24 | | Sunita |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|---|
| E | Faculty/Discipline: Law | | | | | | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medal |
| Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2017-18 | Specified Degree | | Level | Minimum Duration (in Years) | Entry Qualification | Details of the Students proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2016-17 | | |
| Yes | LL.M. | Master of Laws | Master | 2 | Bachelor in Laws | Annexure-25 | | Mukesh Kumar |

नोट:- सत्यापित किया जाता है कि उक्त सारणियों में उल्लेखित सभी पदवियों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के सुसंगत स्टेच्यूट में समावेश है।

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|---|
| F | CHANCELLOR GOLD MEDEL (Under Ordinance 192-203 Introduced as per the direction of the Raj Bhawan) Faculty/Discipline: | | | | | | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medal |
| Under Ordinance 192-203 | Specified Degree | | Level | Minimum Duration (in Years) | Entry Qualification | Details of the Students proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2016-17 | | |
| Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2017-18 | Abbreviated | Expanded | | | | | | |
| Yes | M.A. (Drawing) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-25 A | 01 | Pooja Prajapat |

नोट:- संलग्नक 1-25A विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

निर्णय पूरक एजेण्डा 1: सर्वानुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के स्टेच्यूट 23 के संदर्भ में स्टेच्यूट के अध्याय 3 के अन्तर्गत स्टेच्यूट 6 के क्लोज (13) के उपखण्ड (iv) के अन्तर्गत शैक्षणिक

सत्र 2016-17 में उक्त विवरणानुसार पदवियों के लिए अधिकृत परीक्षित विद्यार्थियों पर पदवी कनफर करने की सूचियों को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। एजेण्डा में त्रुटि से 2017-18 को सुधार कर 2016-17 किया जाता है तथा वर्तमान एजेण्डा के उप एजेण्डा द्वारा निम्न निर्णय भी लिये जाते हैं:

- 1.1 शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए आयोजित परीक्षा-2017 में स्नातकोत्तर इत्यादि परीक्षाओं में पदवी के लिए सूची अनुसार पात्रता प्राप्त परीक्षित विद्यार्थियों के लिए दीक्षान्त समारोह आयोजित कर पदवियां प्रदत्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है
- 1.2 सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि संबंधित दीक्षान्त अध्यादेशों में प्रावधित मानकों एवं प्रक्रियानुसार दीक्षान्त समारोह आयोजित करके पात्रता प्राप्त परीक्षित विद्यार्थियों को पदवी प्रदान की जाये।
- 1.3 कुलपति के प्रस्ताव पर की पूरक एजेण्डा 1 में संलग्न सारणी में उल्लेखित विभिन्न संकायों हेतु स्वर्ण पदकों, कुलाधिपति स्वर्ण पदक संलग्नक 1-25 में उल्लेखित नामों वाले परीक्षित विद्यार्थियों को निर्दिष्ट स्वर्ण पदकों की सूची अनुसार स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं पदवियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय का प्रबंध मण्डल अनुमति प्रदान करता है, के प्रत्युत्तर में प्रबंध में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की। तत्पश्चात कुलपति ने उक्त परीक्षित विद्यार्थियों को उपाधि, स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान करने में सहमति प्रदत्त की।
- 1.4 सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि प्रस्तावित दीक्षान्त समारोह में शैक्षणिक ड्रेस/गणवेश कोड निम्नानुसार होगा:

| | |
|--|---|
| <u>Chancellor</u> | <p>1. Male: Jodhpuri Suit (White/off-white/cream colour), Rajasthani 'Turban' and Black Shoes</p> <p>2. Female: Saree (White/off-white/cream colour) with colour of the Boarder and Blouse as decided by the University and Black Sandal/Slipper.</p> |
| <u>Vice-Chancellor Registrar</u> | <p>1. Male: Jodhpuri Suit (White/off-white/cream colour), Rajasthani 'Turban' and Black Shoes</p> <p>2. Female: Saree (White/off-white/cream colour) with colour of the Boarder and Blouse as decided by the University and Black Sandal/Slipper.</p> |
| <u>Members of University Authorities/Officials</u> | <p>1. Male: Jodhpuri Suit (White/off-white/cream colour), Rajasthani 'Turban' and Black Shoes</p> <p>2. Female: Saree (White/off-white/cream colour) with colour of the Boarder and Blouse as decided by the University and Black Sandal/Slipper.</p> |
| <u>Authorities/Public Representatives and different nominated persons including non-officials.</u> | <p>1. Male: Jodhpuri Suit/ 'Kurta-payjama'/ Paint-Shirt/'Dhoti-Kurta' (White/off-white/ cream colour), Rajasthani 'Turban' and Black Shoes</p> <p>2. Female: Saree/ 'Salwar-Suit' (White/off-white/cream colour) with colour of the Boarder and Blouse/'Chunni'/ 'Dupatta' as decided by the University and Black Sandal/Slipper.</p> |
| <u>Receipients/Students of Degree/ Medals</u> | <p>1. Male: 'Kurta-payjama'/ Paint-Shirt/ 'Dhoti-Kurta' (White colour) and Black Shoes</p> <p>2. Female: Saree/Salwar-Suit (White colour) with colour of the Boarder and Blouse/ 'Chunni'/ 'Dupatta' as decided by the University and Black Sandal/Slipper.</p> |

- 1.5 दीक्षान्त समारोह में विभिन्न संकायों के लिए स्टॉल/दुपट्टा/बैज का रंग निम्नानुसार होगा:

| संकाय | रंग |
|----------------------------|------------|
| कला एवं समाज विज्ञान संकाय | लाल |
| विज्ञान संकाय | हल्का नीला |
| वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय | पीला |

| | |
|------------|----------|
| विधि संकाय | बैंगनी |
| शिक्षा | गहरा लाल |

नोट 1: स्टेज पर स्वर्ण पदक की पात्रता रखने वाले परीक्षित विद्यार्थियों को स्टेज पर पदक एवं पदवी लेने हेतु दीक्षान्त समारोह की तिथि से कम से कम 15 दिवस पूर्व विश्वविद्यालय के कुलसचिव को दीक्षान्त समारोह में भाग लेने की सूचना देनी होगी।

नोट 2: दीक्षान्त समारोह दरमियान स्टेज पर स्वर्ण पदक एवं पदवी प्राप्त करने के लिए निर्धारित गणवेश में आना अनिवार्य होगा तथा गणवेश की व्यवस्था संबंधित परीक्षित विद्यार्थी को स्वयं को करनी होगी। परन्तु स्टॉल/दुपट्टा/बैज विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसे दीक्षान्त समारोह के बाद विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष जमा करवाना होगा। विश्वविद्यालय को इस हेतु राशि रू. 50 जमा करवानी होगी, जिसे स्टॉल/दुपट्टा/बैज लौटाने पर वापस लौटा दिये जायेंगे।

पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 02: एजेण्डा नम्बर 2 में उल्लेखित विभिन्न सारणियों के अन्तिम कॉलम में उल्लेखित नाम के विद्यार्थियों/प्रस्तावित डिग्री धारकों को संबंधित विषय/डिग्री एवं संकाय में स्वर्ण पदक कनफर करने हेतु अनुशंसा।

निर्णय पूरक एजेण्डा 2: सर्वानुमति से पूरक एजेण्डा नम्बर 1 में उल्लेखित विभिन्न सारणियों के अन्तिम कॉलम में उल्लेखित नाम के परीक्षित विद्यार्थियों/प्रस्तावित डिग्री धारकों को संबंधित विषय/डिग्री एवं संकाय में स्वर्ण पदक कनफर करने हेतु सूची को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है तथा संबंधित पात्रता प्राप्त परीक्षित विद्यार्थी को संलग्न सूची अनुसार स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 03: एजेण्डा नम्बर 2 की अंतिम सारणी में उल्लेखित विद्यार्थी/प्रस्तावित डिग्री धारक के नाम के विद्यार्थी को शैक्षणिक वर्ष 2016-17 हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखवाटी विश्वविद्यालय, सीकर कुलाधिपति स्वर्ण पदक कनफर करने हेतु अनुशंसा।

निर्णय पूरक एजेण्डा 3: सर्वानुमति से पूरक एजेण्डा नम्बर 1 की अंतिम सारणी में उल्लेखित परीक्षित विद्यार्थी/प्रस्तावित डिग्री धारक के नाम के विद्यार्थी को शैक्षणिक वर्ष 2016-17 हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर कुलाधिपति स्वर्ण पदक कनफर करने को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है तथा संबंधित पात्रता प्राप्त विद्यार्थी को संलग्न सूची अनुसार कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

नोट: परीक्षित विद्यार्थी जिन्हें स्वर्ण पदक/कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं स्टेज पर पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है, वे अपने साथ कार्यक्रम में अधिकतम दो तक की संख्या में मेहमान ला सकते हैं, जिसकी सूचना उन्हें अपने द्वारा कार्यक्रम में भाग लिये जाने की सूचना के साथ कुलसचिव को देनी होगी तथा उनके किसी भी फोटो आईडी की प्रति कुलसचिव कार्यालय में हस्ताक्षर के साथ जमा करवानी होगी।

टेबल एजेण्डा:

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 01: निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 29.08.2017, 26.09.2017, 27.10.2017, 01.11.2017, 09.11.2017, 23.11.2017, 28.11, 2017, 12.12.2017, 30.12.2017, 11.01.2018, 16.01.2018, 02.02.2018, 07.02.2018, 12.02.2018, 06.03.2018, 07.05.2018, 15.06.2018, 04.07.2018, 05.12.2018, 25.01.2019, 28.01.2019 एवं 19.02.2019 के कार्यवृत्तों का अनुमोदन।

निर्णय: सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 29.08.2017, 26.09.2017, 27.10.2017, 01.11.2017, 09.11.2017, 23.11.2017, 28.11, 2017, 12.12.2017, 30.12.2017, 11.01.2018, 16.01.2018, 02.02.2018, 07.02.2018, 12.02.2018, 06.03.2018, 07.05.2018, 15.06.2018, 04.07.2018, 05.12.2018, 25.01.2019, 28.01.2019 एवं 19.02.2019 के कार्यवृत्तों को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है।



टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 02: निरीक्षण मण्डल बैठक दिनांक 28.01.2019 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 3 (iii) के अनुसार प्रबंध मण्डल के आदेशों की अनुपालना में पुनर्गठित जांच दल की अनुशंषा एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर महाविद्यालय पर लगायी गयी शास्ति को निरस्त किये जाने की निरीक्षण मण्डल की अनुशंषा पर निर्णय।
निर्णय: सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि इस संदर्भ में गठित जांच दल एवं पुनर्गठित जांच दल द्वारा की गयी अनुशंषाओं के कारणों को पत्र लिखकर रिकॉर्ड पर लिया जाये एवं प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 03: विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा-2017 के स्नातकोत्तर स्तर की विभिन्न कक्षाओं की मुद्रित पदवियों की जांच हेतु अतिरिक्त मानदेय रू. 3.35/- प्रति पदवी के भुगतान के निर्णय का अनुमोदन।
निर्णय: सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा-2017 के स्नातकोत्तर स्तर की विभिन्न कक्षाओं की मुद्रित पदवियों की जांच हेतु अतिरिक्त मानदेय रू. 3.35/- प्रति पदवी के भुगतान के निर्णय को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है। इस संदर्भ में यह भी निर्णय किया जाता है कि विश्वविद्यालय की आगे की सभी परीक्षाओं की मुद्रित पदवियों की जांच हेतु आगामी निर्णय द्वारा बदला नहीं जाये तब तक यह निर्णय/दर प्रभावी होगा/होगी।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 04: विश्वविद्यालय में कार्मिकों की अत्यधिक कमी के मध्यनजर स्वीकृत पदों के विरुद्ध रेक्सको से अनुबंध पर एक्स-सर्विसमैन को रखे जाने वाले प्रतिवर्ष किये जाने वाले नवीनीकरण का अनुमोदन।
निर्णय: सर्वानुमति से स्वीकार किया जाता है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 05: विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा-2018 में उल्लेखित सूची के विद्यार्थियों/प्रस्तावित डिग्रीधारकों को संबंधित विषय/डिग्री एवं संकाय में स्वर्ण पदक कनफर करने तथा स्वर्ण पदक भारत सरकार की टकसाल से बनवाने हेतु अनुमोदन।

निर्णय: सर्वानुमति से विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा-2018 में उल्लेखित सूची के विद्यार्थियों/प्रस्तावित डिग्रीधारकों को संबंधित विषय/डिग्री एवं संकाय में स्वर्ण पदक कनफर करने तथा स्वर्ण पदक भारत सरकार की टकसाल से बनवाने हेतु अनुमोदन किया जाता है।

निर्णय: इस संदर्भ में यह भी निर्णय किया जाता है कि परीक्षा-2018 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ऐसे परीक्षित विद्यार्थियों जिनका डिग्री पाने की पात्रता है, उनकी डिग्री मुद्रित करवाने, चैक करवाने एवं उनकी सूची को स्वीकार करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिकृत किया जाता है, परन्तु ऐसे परीक्षित विद्यार्थियों की सूची मय संकाय, विषय एवं डिग्री की पात्रता, श्रेणी, स्वर्ण पदक की पात्रता आदि की सूचना के साथ प्रबंध मण्डल की बैठक में अनुमोदित करवानी होगी। कार्यान्तर अनुमोदन की अनुशंषा में पूरक एजेण्डा संख्या 1-3 एवं उनके सब एजेण्डा के निर्णयों के अनुसार वर्ष 2018 में स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक, पदवियां प्रदान करने की अनुमति विश्वविद्यालय प्रशासन को दी जाती है तथा इस हेतु से 2017 के परीक्षित विद्यार्थियों के साथ अथवा 2018 के परीक्षित विद्यार्थियों के लिए अलग से दीक्षान्त समारोह आयोजित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

वर्ष 2018 में उत्तीर्ण एवं स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं पदवियों के लिए पात्रता प्राप्त परीक्षित विद्यार्थियों की सूची (कार्योत्तर अनुमोदन) की अपेक्षा में।

The University specifies the following Master Degrees under different Faculties:

| A | Faculty/Discipline: Arts/Humanities/Social Sciences | | | | | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medel |
|--------------------------------------|---|-------|-----------------------------|---------------------|--|--------------------|---|
| | Specified Degree | Level | Minimum Duration (in Years) | Entry Qualification | Details of the Students proposed to be awarded the | | |
| Degree proposed to be awarded in the | Abbreviated | | | | | Expanded | |
| | | | | | | | |

| proposed convocation for the year 2018-19 | | | | | | degree/ diploma for the year 2017-18 | | |
|---|-------------------------------|------------------------------------|--------|---|------------|--------------------------------------|------|----------------------------|
| Yes | M.A. (Drawing & Painting) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-26 | 32 | Tanvi shah |
| | M.A. (Economics) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-27 | 138 | Swati |
| | M.A.(English) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-28 | 831 | Rehana Bano |
| | M.A. (Geography) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-29 | 2591 | Swati |
| | M.A. (Hindi) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-30 | 2579 | Payal Jhankal |
| | M.A. (History) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-31 | 1923 | Meenu Sharma |
| | M.A. (MJMC) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-32 | 01 | Meenakshi Sharma |
| | M.A. (Philosophy) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-33 | 06 | Mahesh kumar |
| | M.A. (Political Sc.) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-34 | 4510 | Ragani Kumari |
| | M.A/M.Sc. (Psychology) | Master of Arts / Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure- 35 | 04 | Pushpa |
| | M.A. (Public Administration.) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure- 36 | 221 | Ritu Choudhary |
| | M.A. (Sanskrit.) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure- 37 | 304 | Reena Saini |
| | M.A. (Sociology) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure- 38 | 299 | Sarla Moond + Saroj Kumari |
| | M.A. (Urdu) | Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure- 39 | 94 | Shahin Akhter |

| Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2018-19 | Faculty/Discipline: Commerce | | | | | Details of the Students proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2017-18 | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medel |
|--|------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------|---|--------------------|---|
| | Specified Degree | Level | Minimum Duration (in Years) | Entry Qualification | | | | |
| Yes | M.Com. (ABST) | Master of Commerce | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-40 | 574 | Shivani Gopalka + Shivam Agrawal |
| | M.Com. (BADM) | Master of Commerce | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-41 | 936 | Nidhi Sharma |
| | M.Com. (EAFM) | Master of Commerce | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-42 | 1300 | Monika |

| C | Faculty/Discipline: Science | | | | | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medal | |
|-----|--|-----------------------------------|--------|-------|-----------------------------|--------------------|---|---------------------|
| | Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2018-19 | Specified Degree | | Level | Minimum Duration (in Years) | | | Entry Qualification |
| | Abbreviated | Expanded | | | | | | |
| Yes | M.Sc. (Bio-Chemistry) | Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-43 | 01 | Sunita |
| | M.Sc. (Bio-Technology) | Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-44 | 09 | Manisha Sharma |
| | M.Sc. (Botany) | Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-45 | 583 | Simran Dular |
| | M.Sc. (Chemistry) | Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-46 | 757 | Tripta Kumari |
| | M.Sc. (Home Science) | Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-47 | 07 | Jyoti Saini |
| | M.Sc. (Information Technology) | Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-48 | 10 | Priya Chaumal |
| | M.Sc./ M.A. (Mathematics) | Master of Science/ Master of Arts | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-49 | 491 | Sanju Kumari |
| | M.Sc. (Physics) | Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-50 | 391 | Seema Sharma |
| | M.A/M.Sc. (Zoology) | Master of Science | Master | 2 | Bachelor's | Annexure-51 | 583 | Ankita |

| D | Faculty/Discipline: Education | | | | | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medal |
|---|--|------------------|--|-------|-----------------------------|--------------------|---|
| | Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2018-19 | Specified Degree | | Level | Minimum Duration (in Years) | | |
| | Abbreviated | Expanded | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--------|---|-------|-------------|-----|---------------------|
| Yes | M.Ed. | Master of Education | Master | 2 | B.Ed. | Annexure-52 | 235 | Ranveer Singh Yadav |
|-----|-------|---------------------|--------|---|-------|-------------|-----|---------------------|

| Faculty/Discipline: Law | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|---|
| Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2018-19 | Specified Degree | | Level | Minimum Duration (in Years) | Entry Qualification | Details of the Students proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2017-18 | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medal |
| | Abbreviated | Expanded | | | | | | |
| Yes | LL.M. | Master of Laws | Master | 2 | LL.B. | Annexure-53 | 16 | Neha Mathur |
| | PG Diploma in Labour Law | Post Graduate Diploma | Master | 2 | LL.B. | Annexure-54 | 33 | Rekha Kumari |

| Faculty/Discipline: Computer Application | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--------|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|---|
| Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2018-19 | Specified Degree | | Level | Minimum Duration (in Years) | Entry Qualification | Details of the Students proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2017-18 | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medal |
| | Abbreviated | Expanded | | | | | | |
| Yes | PGDCA | Post Graduate Diploma in Computer Application | Master | 2 | Bachelor Degree | Annexure-55 | 02 | Nil |

| क्र. सं. | वाणिज्य संकाय की स्नातकोत्तर पदवी का विषय | विद्यार्थी का नाम | पूर्णांक | प्राप्तांक | प्रतिशत |
|----------|---|--------------------------------------|----------|------------|---------|
| 1. | ए.बी.एस.टी. | 1. शिवानी गोपलका 2. शिवम् अग्रवाल | | | 78.78 |
| 2. | वाणिज्य प्रशासन (बी.एडमिन.) | निधि शर्मा | | | 71.56 |
| 3. | ई.ए.एफ.एम. | मोनिका | | | 69.67 |

तदनुसार निम्न विवरणानुसार विद्यार्थी को कुलाधिपति स्वर्ण पदक देना प्रस्तावित है।

| Under Ordinance 192-203 | CHANCELLOR GOLD MEDEL (Under Ordinance 192-203 Introduced as per the direction of the Raj Bhawan) Faculty/Discipline: | | | | | | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medal |
|-------------------------|---|------------------|--|-------|------------------|---------------------|--------------------|---|
| | Degree proposed to be awarded in | Specified Degree | | Level | Minimum Duration | Entry Qualification | | |
| | Abbreviated | Expanded | | | | | 02* | I.SHIVANI GOPALKA |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|----|---|------------------|
| the proposed convocation for the year 2018-19 | | | | (in Years) | on | proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2017-18 | 2.SHIVAM AGRAWAL |
| Yes | | | | | | | |

* दोनों विद्यार्थियों के समान अंक प्रतिशत होने के कारण दो कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान करने का प्रस्ताव है।

The University specifies the following Bachelor Degrees under different Faculties:

| A | | Faculty/Discipline: Arts/Humanities/Social Sciences | | | | | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medel |
|--|------------------|---|----------|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|---|
| Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2018-19 | Specified Degree | | Level | Minimum Duration (in Years) | Entry Qualification | Details of the Students proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2017-18 | | |
| | Abbreviated | Expanded | | | | | | |
| Yes | B.A. | Bachelor of Arts | Bachelor | 3 | 10+2 | Annexure-56 | 23838 | Sanofar Bano |

| B | | Faculty/Discipline: Commerce | | | | | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medel |
|--|------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|---|
| Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2018-19 | Specified Degree | | Level | Minimum Duration (in Years) | Entry Qualification | Details of the Students proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2017-18 | | |
| | Abbreviated | Expanded | | | | | | |
| Yes | B.Com. | Bachelor of Commerce | Bachelor | 3 | 10+2 | Annexure-57 | 3152 | Vedika Chaumal |
| | BBA | Bachelor of Business Administration | Bachelor | 3 | 10+2 | Annexure-58 | 70 | Nikita Goenka |

| C | | Faculty/Discipline: Education | | | | | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medel |
|---|------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------|--|--------------------|---|
| Degree proposed to be awarded in the proposed convocation | Specified Degree | | Level | Minimum Duration (in Years) | Entry Qualification | Details of the Students proposed to be awarded the degree/ diploma for | | |
| | Abbreviated | Expanded | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|----------|---|------------|---------------------|-------|----------------------|
| for the year 2018-19 | | | | | | the year 2017-18 | | |
| Yes | B.Ed. | Bachelor of Education | Bachelor | 2 | Bachelor's | Annexure-59 | 10531 | Rehan Haidar Khan |

| D | Faculty/Discipline: Law | | | | | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medel | | |
|-----|--|------------------|----------|----------|-----------------------------|--------------------|---|---------------------|---|
| | Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2018-19 | Specified Degree | | Level | Minimum Duration (in Years) | | | Entry Qualification | Details of the Students proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2017-18 |
| | | Abbreviated | Expanded | | | | | | |
| Yes | LL.B. Part II | | | Bachelor | 2 | Bachelor's | Annexure-60 | 419 | Daya Sharma |
| | LL.B. Part III | | | Bachelor | 3 | Bachelor's | Annexure-61 | 291 | Rakesh Kumar Katariya |

| E | Faculty/Discipline: Science | | | | | Number of Students | Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medel | |
|-----|--|----------------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| | Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2018-19 | Specified Degree | | Level | Minimum Duration (in Years) | | | Entry Qualification |
| | | Abbreviated | Expanded | | | | | |
| Yes | B.Sc. | Bachelor of Science | Bachelor | 3 | 10+2 | Annexure-62 | 7902 | Mahima Chotia |
| | B.Sc. (Bio-Tech.) | Bachelor of Science | Bachelor | 3 | 10+2 | Annexure-63 | 25 | Sharwan Kumar Rohalan |
| | B.C.A. | Bachelor of Computer Application | Bachelor | | 10+2 | Annexure-64 | 111 | Sandeep Jangir |

नोट: जिन विद्यार्थियों को स्नातक/स्नातकोत्तर की पदविया प्रदान की जानी है, उनकी संख्या उक्त अधिसूचना के संबंधित कॉलम में दी गयी है तथा ऐसे विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर Annexure 26 से 64 पर उपलब्ध है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 06: दीक्षान्त समारोह के आयोजन हेतु मानव संसाधन व अन्य मदों पर खर्च हेतु अनुमति।

निर्णय: दीक्षान्त समारोह के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिकृत किया जाता है एवं विश्वविद्यालय में संबंधित क्षेत्र/कार्य के अनुभवी मानव संसाधन के रूप में विशेषज्ञ नहीं होने के कारण अन्य विश्वविद्यालयों के वर्तमान/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संयोजक, अधिकारी एवं कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने के लिए भी विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिकृत किया जाता है।

यह भी निर्णय लिया जाता है कि संयोजक को सम्पूर्ण कार्य करवाना होगा, परन्तु उसे टी.ए. के अतिरिक्त रु. 2000/- प्रति दिन की दर से रु. 50000/- की अधिकतम सीमा में ही भुगतान किया जायेगा। इसी तरह

से प्रशासनिक अधिकारी/ओ.एस.डी. को भी दीक्षान्त संबंधी सम्पूर्ण कार्य करवाना होगा परन्तु उसे टी.ए. के अतिरिक्त रू. 1000/- प्रति दिन की दर से रू. 30000/- की अधिकतम सीमा में ही भुगतान किया जायेगा।


यह भी निर्णय किया जाता है कि अन्य संसाधनों के संभावित खर्च का अनुमान उक्त अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड पर लिया जाये एवं व्यय की प्रबंध मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति ली जाये।


**टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 07: Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Act, 2012
Section 11 (3): Entitlements of the Vice-Chancellor.**

निर्णय: सर्वानुमति से विस्तृत चर्चा के बाद प्रबंध मण्डल की आगामी बैठक में चर्चा हेतु रखा जाये एवं तब तक वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जाये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 08: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य एजेण्डा बिन्दु।

कुलसचिव द्वारा मा. सदस्यों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति 27/5/2019 -


कुलसचिव